
2010 Before -Satpanth Manuscript 24 (174)





1) This book is in teribly bad condition.
2) Some pages are missing
3) Sequence of pages is not correct
4) Some pages are upside down.
5) Many pages are dilapidated and torn



[illegible]

२ नांनुजुरनां जुलखण छे:॥

१० जुरनां मानी भासी भ्रात छे:॥

१३ मोटा जुरनां जुलखण छे:॥

४५ जुरनां मानी भासी भ्रात छे:॥

५६ दंद्रोजारी जुरनां जुलखण छे:॥

७१ द्दाहरनां जुलखण छे:॥

८० होवाध्यानानां जुलखण छे:॥

१०० ध्याननां मानी भासी भ्र

१०१ होवापेली पासन पने पा

११० होवाध्वी नाध्वरमाने पा

११३ होवानी ना मा के मरने प

१२१ होवाओपीम कुतीने पाका

पापां सजी फेटरखेन

2010 Before -Satpanth Manuscript 24 (174)

૮૦ દોવા આગ્ત જીવ્યા પંનથારીની

૮૬ દોવા ત્રાઠ જીના પને ૯ ઠામે રે:

૮૨ દોવા નવ જીના પને ૯ ઠામે રે

૨-૨ દોવા દસ જી ૯ ઠામ રે ત્રાગ્રાણ વાગ્રાણની:

૨-૩ દોવા ગ્યાર પને ૯ ઠામ રે પાન્ગકૃષ્ણ

દોવા ગાવ નહી ઘાગ્રા ર પિઠાર્ડ્ ૯

૧૨

दीवानूर ना मूलख छे: फरमा
नम्अ ला ही: नपीसाहे पपा
मा:॰ पोअ म ला हरे हे मां नन
नर ही मः अ ला हे म द ले ला हे:
रप ला-आ ल मी नाः पे ले पेगा
पर: नपीअ ले ला:-आ व अ ले
ग: म हा पन पी-आः पा छे पोहा
पा फर मां न हु-आ: वे पं नी-पा
र ने: नूर म हीम पा-पु हा नु पु
: उ का पी आ तु-आ हं म हर पी
पी छे पो हा ता ला ने: नूर पु
हा: फेनूर ते रा पु हा नु पी-आ:
रा पुल मां नु पु हा: पा छे उ

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

आपन री नही आहेः॥ पेला द

री आपणेः तेरे ने २ प्रकार ना हेः

[illegible] ना दरी आपणेः तेरे ए लंग

प्रकार ना हेः२॥ त्री जा दरी आ

पणेः तेरे पल के प्रकार ना हेः३॥

चोथा दरी आपणेः तेरे अपरी

[illegible]म ना हेः४॥ पांच मा दरी आ

पणेः तेरे फकीरी प्रकार ना हेः५॥

[illegible] दरी आपणेः तेरे हजीम प्रका

ना हेः६॥ सातमा दरी आप

तेरे आफुल प्रकार ना हेः७॥

आठमा दरी आपणेः पेगा

र प्रकार हेः दस दस हजारः

अ तो छेः आंनां मतरा प्या हेः

सो न रंजु दा जु दा की आ:पा छे खो।
दा ता ला ने: फो दर त आ प आ की
ती: त दा ऐ क जा ड पे दा की आ: पा
छे खो दा का पार मां न द आ: के नु
र ते जा ड पर पो ज: पा छे नर तो
जा ड पर पो वा: पी छे व पा फु
दर त आ प आ की पा: त दा ऐ
आर सी पे दा की ती: वे जा ड कु
म तो: आं न र त ल मां न ता
फे आ र सी का ना म तो: मर
फे आ: त दा नर तो जा ड पर
आ र आ दे ण ने सर मा ई:
सी ना द आ: उ मे फे नर फु:
ला ण ने: ऐसी द ना र: पर दे

पत्रां पत्र प आ ना हु आ: पा छे आे
हा का फ र मा न हु आ: के न र ते
आ प स फु हु ला ऐ: पा छे हु न र त
पैं गां प र ने: डी ल हु ला आ: त
प ऐ फु ला प ने ओ सी हु ना र: न्हे
र फे फु त रे प रे: त हा उ न फ त रे फु:
उ ला प ने ऐ आे हु ना र: पा र पे
गा प र फी: र हु नी हु ऐ: पा छे पे
प र के स र उ प र: से आ त हु ना
र फे फु त रे प रे: त हा उ न फ
की: से आ त से आ त हो से नी हु
पा छे पे गा प र फी: न ग णी
ग मां सो: हो न र फे फ त रे प रे:

[illegible]

४

[illegible]

[illegible]

पे॰हेलेमास॰ पां मनखकेरू त
रेणरे॰ उभ्रमे पेलेफतरे फुं॰सा
जरतंलमांनताह एं॰ पेहेमेक
जपराईलउपाअहे॰ शा ह
जेफतरेफा॰ हरपवतो फाह
एं॰ उसा जा ऽ न सतमे॰ अंनं
[illegible] सपादं॰ केफपालागंताहे॰
उफ़ानमे अछारे मारे॰ पंन
[illegible] तीकामपादमेपाहें॰ उभ्र
पासपेगापार के॰ आगडे
[illegible] लीकीरारां भाईहे॰ पापा
[illegible] पारमांनउपरम लेगा॰
पफुपेहीरसालपोमापेगा॰

तीने कुतरे कुां होन केअर
कुऐ०उस मेना पे०ओन पानो
प्यांन पा पे गा०उा मोपे कुतरे
कुा० मं ल कुं लः कुहस कुऐ०उ
सपर पा कुरू हांनी पापर पेगा:
पां हो तो लजी नांन हो पेगा०
पाम मे कुतरे कुा: पा सा कुऐ
पे मे तू मु ओ कु दी आ० अपलते
मे तू आ दम कु पा० प्या पा
दम नेआ हे प्य कु दी आ: न
न
आ हे पें० न मा ई कु प्य ग
पा हे अ ली ने मे तू मे ओ कु
आ०उ आ प्या आ मे: पडे प

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

१

तुने कोई न पेखे: तन मा अे
ही अेप कहेरे पापप: तप पापने
कहा नरकः कुं त आपे ऐ कहें: त
प नरने कहा के तो पांअं जां:
पांहां तो पारा अेप मारां हे: पे
प तो ऐ कुपो हां तां जां हे: त
नर पे आगे: पाप ने ई मा
न जा आ: तप पापने कुल मा
ा पे: हपु जा ऐ लहें: ई ल जा ही:
ा मे दरस जं जा हे: ॥१॥
मोहां का पर मा न से: न
म दपु: आप पासे गया:
नरने कहा के: स जां मया

लेकंमरे आपः तप आपने
फकाकेः आजे कम आपां मंते
कोनहेः तप नरने फकाकेःन
सफातं पंदाहेः उमा फामानर
हः तपनरने फकाकेः हंनी आ
मेत केकाफरे आपः तप आ
पने फकाकेः मनावेओ
रः तपनरने फकाके तो पांआ
लाः पंदे फम ननापंतीः प
केसा फनीः ते आपअंना
परे आपः तोन मेप डा
होः तदा आपने फकाकेः
मेफांएपहेः तंपनरने फक

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ओरु पाप मोः पृप फुरपा वेगेः
नेन पासा फपफेः नरफपातः
लपेगे पडे गेःसोनेगेमपात
फरे गेःपेपर फत नरनां मेफीःहो
नफु नना पे गाः पेपरापरीम
सा तोपे गाः सो नमातफीनगो हूपे
फरमां नरपलाआलमीन
ःपर फत नर नपीफीः पेऐफंद
पंत मदफा नर नांमाःसो लतां
तन नपी पादा पासो लेग
तदापो त पो त पो सालरु
पसो लतां नगन नपाः
नेप्रेउनां नांः मोने सा
नी आपा फा फां मदी आपः पेपो

तप्योतज रीनां: दमंडा दो फडा:
तंनमंठ: हाल माल: आगल
धरा हेः ने प्यो रप्यानी उकी ती: प्यो
तप्यो तप्यो स्ता हो करने: पे गाप्य
रफा: नर नां मां ली आ: पे नप्या
मह मदफा नर नां मां: ईमान मे
रतओ: लप्ये गः पडे गे: सो ने गे
फाओ त फरे गेः नर नां मां ल
ने पामो राप्ये गेः उआ पानंन
त: प्य ला हर हो पे गेः प्यो दात
मोर द: हांआ ल फरे गा: अ ला
फी दो ऐ ल मां ने गे: पे नप्या
दफा नर नां मां: ईमान ओ
लप्ये गे: पडे गे: सो ने गे: स

न कुरे गेः ७ अ कु मार केता पः
पडे को सपा प फ़ो पे गा वे केन
केन केता पः तोरी तःपा अंग
रःरा नं पृ रःउा पर पां नः प
पे मा रू के त प कोस पा प फ़ो पे
ः पेन पा सा फ़े प को नृ र नां
नप नारेः पड नारेः सो नना
कू ऐ कु पेर फ़ न गड नारे को ःस
प फ़ो पे गेः प र मा न र प ला
मा नको ः प र कु त नर र न पा
ला पां म फ़ म द को नृ र नां सां :
सोरत सेः लो मे फी रा ता
ः मोने गेः स पा त कुरे गेः

[illegible]


[illegible]

realpatidar.com

૨

[illegible]

realpatidar.com


૨૬૩૫૨॥૨૨

[illegible] 213 [illegible]

[illegible]

वोहा रुद्र नम मंता परमं
ग्नापास्ता क्षे रु लां मार पेनी
सन मेवानी आरूःत पा हु येश
ईरा अरु पर हु अरु वाडा पाप
सप रुगा मन सोनघा
रें सत नुःदं नमं नघ
रूः। वास्ता क्षी भार मनी
ने लोला गारूः द्या प
स्ले नाप की नाग

[illegible] स्वामी मापद [illegible] री पात [illegible]

[illegible]ः जने म [illegible] सतगोर ना सा

पते पछा [illegible] ः ॥१॥ ना [illegible]

[illegible] घर मा [illegible] प न [illegible] ः ती

[illegible] प न पे [illegible] सता [illegible]

॥ स [illegible] पे [illegible] घ र मां

[illegible] नातीः तां न ग म ग

[illegible] ग पा [illegible] प र में मात

[illegible] पी [illegible] गला पी गला

मना [illegible]ः ता घ रं सं [illegible]

[illegible] मा [illegible] ॥४॥ स [illegible]

[illegible] म सा [illegible] ः

realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

२६

[illegible]चाधमोंहसे सधसे।

द जानहीनासेपरसेनाम

ह धरं माः ऽमनम

१	२	३	४	मथमनासेफल
[illegible]	[illegible]	७	८	नपजाचनड़ी
१०	११	१२		परसोपारामपी

रसतगरधरमापोयाः ॥१॥

[illegible]रसेफमाःसधसें

[illegible]सेघमानसा[illegible] ५

સધેરવાડાંસત હોઆપ॥ પા
ડા સ્તી નીખ ગસ્તી ...
ધો વરસાધ સે ...
તાપે ...સંવસતલધ
...તાઃ॥૭॥ પતપેરીને
તાપે જેદી દેર્તનતીને
...તાહ નહ॥ તપાર
...સેસાંધ ...સ...॥
...રદ સ... ...
ધીને તાપે જદીધ ૧૦॥

[illegible]

[illegible]

३.४

મૂસવ ગોરખવાચા

પક્ષીએ નાત મયાકુમાએ

૧	૨	૩	૪	૫	વસતગ=આનીઅર
૬	૭	૮	૯	૧	કનાવપીજ

ઉઅશ્વરઘ્રણી=અવસસંકી॥૨॥

પરઘ્યદસંજોવસતવા

સંસકી॥૩॥ધ્યણીફો

ગ્યનાઅર૨ઝીબ:સ

દન... ... ઘ

realpatidar.com

२०३

[illegible]

આપતી ૯ ક્રૂ નાપરખે પઈઆ
ખઓદરે ખાન નેદંન ઓપડી લ
ખત ઈઆરકીધી છે: લખતંગ
ખદા ખાખ આદ ખપાકુ છે ખં
દોગં ને ગૌરછે: આદ ખદાં નાખ
ગાંઠા હારછે: લખી તંગ ના
પાણીને ટાજૂ જાણી: લખા પતં
ગ જાંઝાણી પેપ નાખી દી ઠ
પડી છે::: દા પાસકી મમ
ઈનેમેં જમ કુર પાના પે
માન ના બસ મલ ૯ રે
ન ન રૂઈ મ ઝ્મ ના ઝ્મ
ઝ્મા પક લ પારાં કજ મન
મ [illegible] ઝ્મ કુ મ ખના

मांनोईनसपूतोः ६मर
मांऋेपूपारळपेःतोहा
लेनेसाहप्पःनसतनसी
प्पपूरेःनेपूांमपूरपूहाएतेः
मोहारनप्पूपतपांमी
पूरेःतोनेपूांमपूरेतेहां
पाऋेःतपामोहार
पंतःनोऋाा०, दरम
पंतेपीरसोहरहीनः
पूप्पीरहीनःसामूपू
ांएानोः हपूलाऋेना
होःमांहांमहरर
नाहः।।।

तंमेरे पारखोः पेनां मत तो
नेःखोसालफोकरहेताफुःपे
नाजातफीनगाहेताफुःपांहेल
णनेपालेफाइमांनःखाला
सलं[illegible] मतराखे माःफारमांन
[illegible]खालर[illegible]नफुांःफारफु
[illegible]नप्याफीः[illegible]नेपालेःप
[illegible]लेःसोननेपालेफाःई
[illegible]मंजाहरमरणेगाःपेन
[illegible]रनांमांःईमांनसोर
[illegible]मेगेः[illegible]नेगेः
[illegible]गेःपेमांसाजमांन
[illegible]तनं मातसेःपे

पार मो रमा इओः वे मर इः ओ
रत ओः सर आही सरप रहोवे
गाः पाकु हीन हार होवे गे ः अ
ला काहे हार पावे गाः नपा
हमइ की स पात होवे गा पो
तपोत मरत पा हास
गाः परमं नरपला
नकाः पर कत ह न रत
की ः तरा पत ः पा पार
आर पीः उा गु री मे
पे पं नी आ हं म का
सो पो हा ता ना प
पर कत न र ना मे

अवलाहि आरय सहंसदको प्या
दाहि:: नूरनां मा पडे: पार हिसं
म:: सों नों मु मं न ना हि:।।।।
नूरनां मां:: आप रूप छे: ते ॐ
प तं गा पां दा न्या न्या सा तो प्प पा कु:

... रना मू लपू छे ते सोंको
ना ग: प्पे मा म ला हरने
... ररही म: अं ला हम
हे: रप्प ला आ लमी ना:
कु प्प हो: पले मों सल
आत की न: पे ही स
ते हीआ लां मो: आ
ली: मई मदीन: प

दा ता ला ए फर मा फ छे: के ए
कु दन मे हे तल पपराई ल: स
ल पां तां लांआ ले पका ल सआ।
पा छे: तारे पापा फा तं मां त
न हो रां: रल आं ला हे ता लाआ
ल कु: ते पपत तां हां हा न र हो
सो: तारे पापा फा त मां एफ
:फुल लां सआ ले फु मरे:
का फान पपराई ल: तारे
पपराई ल पपो लानं
रे पापा पा फा त मा एफ
हे तल पपराई ल: त
नो न पपाप: के सपा
न ही: तारे मे हे तल

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

मे हे तु न णपराईज: मोटा तो
नथी आ हेपछे: तारे मे हेत
नपराईजपो लाछे: अ
तो नथारअ ज जां हे: तमे
मोटा छे: अंने तमे मोटा केया
छो: पंथ उमर अं मारी घ
छे: तारे हणवे तरअ जत
ही: सजलां आजे पअ
छे: अ हो मे हेतनप
तं मारी उमर पेट लीक
अंने तमारी उमर मा
नो उछे: तारे मे
राईजपो ला छे:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

१५

रपार॰अंमेउगंमतोने॰
आपिमतोडीखेफतो:तारे
फनरतरअलेफफछे॰अ
फोमेतृनपररईल:तेफेत
पतारोतो:अंमाराणरमां
फेपा:मांहातालाऐपेहाफी
ैछे॰तमतारापीआग
पमासजापने:मउह
परसपीमोरो:मांहा
ऐपोताना॰पफीमांन
पी:अंमारनरपे
छे॰माईनपराईल:

तमे सो ओ तो तमारी आगळ ः
ते पात न अं मे पे आंन करीए ः
कोप्यो हा ता ता ए पोता नान
र नी ता पा की धी छे ः ते तमे ए
आ द्रा प्पनो ० तारे मे हे तन
प्प राइ जः ए घु सोर ते र हा छे ः
तारे ता हा नर मह मः मो आ मे
पा ए कउ छे ः अ हो ना
प्प र इ जः तमे कु ता
डी छो ह तो ः ते तारा ने
नी आं नी ह ती ः तारे
प्प रा इ ज प्यो ला इ ः

[illegible]

ऊ छे: अहो मे हे तन पवराई
ज: ते तारा ने कों नमा हेपो हु
रह तां: ते हो ऑ ना: होऑ हता
गपा मां मादू पा ऊ: ते पा पा
पात मा हतां: मापे तोरो ता
तेरअ ज ना नर हतां: हपिमा
अंगो ठी: ते ह नर तअ ता
ता: ते पे ता प तार
पां मनी सां न हतां:
तें न पापु छे: ते अं मा
पवरा पर छे: तारे
तसां आपी ने: मे
राधु ते सो तां म पो

ले फुम सालोम: नो प्याप्या पा
तमां: ओ पो अं सर मां नो छे:
प पीप्पो हाता लेः अप लनो
कोई पे दाखी ध छे: ते नर आर
पे अं भारू छे: तां हां नर महंमद
मोसात पाने: सर हो पी घो छे:
तारे प्यो हाता ला नर पर रमान
[illegible] मा पु [illegible]: ने छे नर मां रां: छ हो
सहा [illegible] मा रा: छे हा नर त हप्याप्य
[illegible] रा: छे म हंम द मा मा कुल
[illegible] हा रा: छे रजा ल मे हे प्पप्प
[illegible] छे नर मां स्कू: त ल कमा
रे [illegible] छे सात गोर ण: तं पे पोता

नमा पुउ पा डोः तेमा री मो पात
मां ह पा: अं मे दस हरी आ पेदा
थाछेः ते मा ह पे जो हरी आ पेतो:
पेजं मनो पेदा थी थो छे: पा ... मां
हरी आवे तो: हजा मनो पेदा थी
थो छे: रा नी जो हरी आव तो: ह
आत नो पेदा थी थो छे: उप ... मां
हरी आव तो: ह मत नो पेदा थी
छे: पा पांम मो हरी आव तो:
फ्रजनो पेदा थी थो छे: पाछ
री आव तो: फफु रनो पेदा
छे: पा स्रात मो हरी आव
पारनो पेदा थी थो छे: ना

दरीआप तों असकुनो पेदा
की होछे: तानो मो दरीआप
तों आपनो पेदा की होछे: २ना
दसमो दरीआप तों उमेदरे
हेमतनो पेदा की होछे: पणा तेवा
दसो दरीआप मा हे: मोटा मो
टा मछा न उपरनां: ते मां हे दस
दसा: हजार परस ज गाछ: ओं मा
रा नूर नेरा भाछे: ते बां दस दस
हजार. परआप इ गाआ छे: तां
गा नूर तो सरदा मा हतां:
जार परआप छी: पणा
ता नूरतर मां नआपछे:
बारा: ते हो अदार मा हारा:

ऐहजरत हयायासाहाराः ऐम
हंमद माअफुलयासाहाराः ऐर
सुल मेहप्पू यासाहाराः ऐनूर मां
तलफुमाहाराः ऐसतगोरजाः गा
तं मे प्याहेर आयोः तारे नूर हंम
द· मोसतफानां प्याहेर आ पांछे
आं ने फुला पर सु आकी छी छेः ता
रं पछे पकी प्यो दा ता लाना पा
मांन आपां छेः ऐनूर माराः ऐ
सहोर माहाराः ऐहजरत हप्या
माहाराः ऐ महंमद माअफ
माहाराः ऐरसुल मे हप्पू
हाराः ऐनूर मा सुफल
ऐ सत गोरजाः तंमे

तांनइ डालखं खो थो: तारे हजार
तरम लं ला ऐ: उठीने पोताने
डालखं खोधा छे: तां हां अनंत
अनंत रो हानी पेदा कीधी छे: ते
माहे थी क तरा ऐक लाख ने ऐ
सी हजार: अं मारां नर ना पर
त्यार क मांथी पडा छे: ते माहे
ऐक लाख ने असी हजार:
र पेगांबर पेदा कीधा छे: प
थी क तरा आठ हजार: तप
र: अं मारा नर ना मोल्य:
माहे थी पडा छे: ते मा
ठ हजार: रुषीओ ने ते र:

ए हजरत हवावा माहाराः एम
हंमद माअकुलवा माहाराः एर
सुल मे हेव्वा वा माहाराः ए नूर मां
त जुमा हाराः ए सतगोर जाः गा
तं मे प्याहेर आपोः तारे नूर हंम
द. मोसत फानां प्याहेर आपांछे
आंने फुना पर कुआनकी धीछेः ता
रंपछे पनी प्यो हा ता लाना पा
मांन आपां छेः एनूर मारांः ए
सदोर माहाराः ए हजरत हवा
माहाराः ए महंमद माअक
माहाराः एरसुल मे हेव्व
हारांः ए नूर मा सुफल
ए सत गोर जाः तं मे

तानडी लाधंधो पो: तारे हजार
तरस लं ला छे: उठीने पोतान
डी लधंधो पण छे: तां हांआंनंत
आंनंतरो हानी पेदा कीधी छे: ते
माहे थीक तरा एक लाख ने ए
सी हजार: आंमारांनरना पर
त्पारक मांथी पडा छे: ते माहे
एक लाखने ओसी हजार:
रपेगाम्बर पेदा कीधा छे: प
तथी कतरा आठ हजार: तप
र: आंमारा नरना मोम:
माहे थी पडा छे: तेमा
ठ हजार: रूपओ ने टेर:

मोरमा जपे दाको दा छे ० पछे प
मा कुतराकेर लाटे लाख ० अं मा
रानर नारो मरा ए ० मप्पार कुमां
हि पापडा छे : तेमा हि पा केर जा ए
लाख : नरी फार सता पेदा कुद
छे ० पछे पचाकुतरा : नै पां हि मार
अं मांरानर ना : आसम प्पार कु
हि पापडा छे : तेमा हि पा : से अत
अत हि मे नी पेदा का दी छे ० प
कुतरो ए कु : अं मारानर नो
सा ना मप्पार कु मा हि पा
तेमा हि पा मोरनयक अ
को दी छे ० पछे कुतर यो

नरनाः तें म ऊठी आंरम मख्या
रुपमां हे पीपडा छे० ते मांहे
थी पेले कुतरे कुा तो: मे हे तेन
पवराई ल पेदा कीधा छे० अने
पा नो कुतरे कुा तो० मे हुन सोकु
ईजे० पेदा कीधा छे० रा प छे प
णी कुतराये उ अंमा रा नूरना:
पा आंरम म पार कुमापी
पडा छे० ते मां हे थी पेले कुतरे
कुा तो० मे हे तु आमारा पीजपे
कीधा छे० पाणी ने कुतरे कुा
मे हे तु अन राई ल पेदा
छे० रा प छे पणी कुत

रा ष्याउः अं मा रा नर नाः ओ मे
षा ने तम ष्यार कमांथी पडा छे॰
ते मांहे था पे ले कर रे ञा तो॰ मे
हे तम्हर पा ई ल पेदा था छे॰
ष्या ने कतरे खा तो: मे हे त नर
पाई ल पेदा थी था छे॰ रा पछे
पछी कतरा ष्याउ: अं मा रान
र नाः डाष्या ने तम ष्यार क
हे था पडा छे: ते माहे था पे ले
तरे ञा तो॰ मे हे त अ दरा ई
पेदा थी था छे॰ ष्या ने कत
तो॰ मो हे त अ नाए ले
था छे॰ पछे पछी कत रा

2010 Before -Satpanth Manuscript 24 (174)

=ॐ मारानर नाः जे म फाका
न मप्यारक माहे पी पडा छे ः ते
माहे मा पे ले कृत रे का तो ः जो
ह पेदा कीधा छे ः प्या जे कृत रेषु
तोः कृतं म पेदा की धा छे ः पछे
पका कृतरा प्येउ =ॐ मारानर
नाः मा प्या फा न मं प्यार कुमा
[illegible] पा पडा छे ः ते माहे पा पे जे कृत
रे का तोः =पर का पेदा की धा छे ः
[illegible] ने कृत रे का तोः कोरसा पेदा
[illegible] छे ः पछे पका कृत रा =मा
[illegible] रानर नाः जे म फा नाकृ
[illegible] कुमा हे पा पडा छे ः तमां

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नूरना काया गाजमआरफु
माहेथी पडा छे ते माहेथी सात
तत्व कः आकाश मान ना पेदा थ्या
था छे पछे प[illegible]कता राखे रना
एक लाख: अं मारा नूर ना [illegible]त
मआरफ माहेथी पडा छे ते मां
हेथी केन ना एक लाख: तारा पेदा
[illegible]था छे पछे प[illegible] कत रा मार:
अं मारा नूर ना: [illegible] मआर
मा हेथी पडा छे: ते माहेथी मा
पेदा की था छे पछे प[illegible]
[illegible] अं मारा नूर नूर
[illegible] हाथ नी पांस अंग

आउ मं प्यार कुमा हेथा पडां छे
ते माहेथा अडसठ तीरथ पेदा
कीधां छे॰ पछे कुतरो हे कु॰ अंमा
रा नूर नो तं मं [illegible] मा म प्या
र कुमा हेथा पडो छे॰ ते माहेथा रेण
पेदा कीधी छे॰ पछे पजा कुतरो
अे कु अंमारा नूर नो॰ डप्यामं म
म प्यार कुमा हेथा पडां छे॰ ते मा
था दीप स पेदा कीधां छे॰ पछे कु
तरो हे कु अंमारा नूर नो॰ तं
प्या ज म प्यार कुमा हेथा प
ते माहेथा मंदर मा पेदा कु
पछे पजा कुतरो हे कु अंमा

realpatidar.com

[illegible]

जनो पेदा कीधी छे० धंमें कते नी:
तीआहमणार नोनं न० तेथीकुरनां
पाप कीधी छे० छठे कतरे कातो सात
पंत कुरा पेदा कीधी छे० सा तमे कत
रे कातो० अंमरापरी माहे० नराण
कुं आर पेदा कीधां छे० आठमे कत
रे कातो साणरतो जे० मां नतां पेदा
कीधां छे० नोमे कतरे कातो० उा
तो पतां पेदा कीधां छे० दसमे कत
रे कातो० अठार भार पंनसप
मेपाधार जात जात नां जा
दा कीधां छे० पणा पछे पां
सांअंमारा नर नां० मा प

अपार स्वामी फेल पकडे छे: ते मा
फेला पेले फ त रे फा तो ० अरा प
तं न फुरां पेदा की धां छे ० प्पा ले फ
त रे फा तो ० संत ना द्री आ पेदा
की धां छे: ही ले फ त रे फा तो ० दुध
ना द्री आ पेदा की धां छे ० मोपे
फ त रे फा तो ० हो ल केसर पेदा की
धां छे: पां अमे फ त रे फा तो ० दं ना
आं मा हे: ले ए क दूध छे: ते सर
ले पेदा की धां छे ० छ ठे फ त रे फा
फ ल नां मात मात ना पेदा
छे: सा त मे फ त रे फा तो: ते
प्प ने आ छ हणा र: न दी ओ

पेदा कीधो छे॰ आठमो पुतरे का
तो॰ जसतना फगडा आतमा
तना पेदा कीधां छे॰ नोमे पुतरे
का तो॰ असराईल आतमा आतना
पेदा कीधो छे॰ दसमे पुतरे का
तो॰ दमा आनां फगडा: आत
आतना पेदा कीधां छे: १०॥ पछे
पका पुतर दस: अंसा रानू रन
पोउ हापना दअ आंगआउ:
प्यारकु आहे पापडा छे: ते
पापेले पुतरे का तो: कुं
की धां छे॰ प्याने पुतरे का
पां पेदा की धां छे॰ दीने पु

तो: मोरारे अं गोठी थातमः
सोले मान पे गांप्यरः सो लं लां
ञ्पा ले: प अ लं म नी पे हा फो घी
घे: ओ पे फुतरे फातो: थी सा
मे हते मूसे: पे गांप्यर स लं लां
ञ्पा ले प स लं म नो ञ्पा सो पे हा
फो घो घे: थां मं मे फु त रे फा तो
मो प्यर प्यां नी: ञ्प स मा घी
ल पे गां प्यर: ने पा स ते थो हा
ला छे: त्र स त पे फी: मो फुं लो
: ते पे हा फी घो घे: घ ठ फु
तो: उर डी सा ले पे गां प्य
लं ला ञ्पा ले: प स लं म नी पे

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उपेदा कीधां छे : आदने उतरे
का तो : परजगार जो उपेदा की
धां छे : ता उतरे का तो : आसतकी
न जो उपेदा कीधां छे : मोपे उ
तरे का तो : आफर जो उपेदा कीधां
छे : पांमंमे उतरे का तो : आल
म जो उपेदा कीधां छे : छठे उतरे
का तो : संपस जो उपेदा की धां छे :
सातमे उतरे का तो : ने उपपप
[illegible] तो उपेदा कीधां छे : आठमे उ
[illegible] का तो : हाक जो उपेदा कीधां
[illegible] मे उतरे का तो : आोल आ
[illegible] उपेदा कीधा छे : दसमे उतरे

ફરીતો: મુમન લોક પેદા કીધાં
છે: ૧૦) પછે આકાશ ફરતા દસ: અં
મારા નુર નાં: પહેલું દસ આકાશમાં
ફરીશ્તા પડા છે: તે માં ફરીશ્તા પે લોક
ત રે ફરા તો: ને કમાં નલો ક પેદા
કીધાં છે: આભો ફરતે ફરા તો: સપ
ર લોક પેદા કીધાં છે: ત્રીજે ફરત
રે ફરા તો: સાતો મા ન લોક પેદા કી
ધાં છે: ચોથે ફરતે ફરા તો: સાત લો
ક પેદા કીધાં છે: પાંચમે ફરતે
ફરા તો: સાફે પ નીરણા ના: સા
લોક પેદા કીધાં છે: છઠે ફ પ
રે ફરા તો: ઓગણ જ સ લો ક પ રેવ

धां छे: सातमे फरतरे फातो: जो
स द फलो फपेदा फी धां छे: आठमे
फरतरे फातो: हा फमर लो फपेदा फी
धां छे: नोमे फरतरे फातो: जफरलो
फपेदा फी धां छे: दस मे फरतरे फातो:
फ्र रातप नफ्ता से लं ला: आ लेप
स लं म ना पेदा फा धां छे: शाफ छेप
फा फरतरे दस: अंमा रानूरना: फे
उ ल फम म फ्यारफ माहि फा पडा छे:
मा हि फा पेजे फरतरे फा तो: स र फुं
[illegible]दा फा धां छे: फ्याने फरतरे फा तो:
रम सात ना पेदा फा धां छे:

मने फतरे फातो: मो सफ पे दाफा
धां छे॰ मो पे फतरे फातो॰ आपार
ईं ना आना पे दा फा धी छे॰ पांमें
फतरे फा तो॰ कपूर पे दाफा धां छे॰
छठे फतरे फा तो॰ ना फ रांन पे
दाफा धां छे॰ सात मे फतरे फा तो॰
सर नांन पे दा फा धां छे॰ आठ मे फ
तरे फा तो॰ जा पेर पे दा फा धां छे॰
नोमे फतरे फा तो॰ ला ल पे दाफा
धां छे॰ दस मे फतरे फा तो॰ पां नां
ना लां लंम पे दाफा धी छे॰ वा [illegible]
ला [illegible] त पत सार पे॰ न फा र [illegible] त

ना नूर:तंन सप्यारपुमाहे था:
प्योहा ताजाए पेहापु घां छे:अ
हो मे हे तन प्यार ह्ई ज:सजपा
तो जां:आ जे प स जं म:तोप
छे पचा प्योहा ताजा नूप्यार मा
नआ पां छे:जे ते माहे पुजं मनेह
पुं म पि ओ छे:तारे पुउ छे जे:पु
जं म तं मं:पोतो ने ह ज नां हांन
पा जप्यो:तारे पुजमे पुउ छे
जे:पापुपर परहे गार:अं
मे पे आ जप्या ओ:तारे प्योहा
ताजाए पार मा पूछे जे:ईआ
[illegible] मतं मे जप्यो:अंने पुहो
[illegible] हपु जाए जाहु:ई जं जा हो:

तारे प जंम तो जोउ परे आ जा
छे॰ ते आ त्तमार॰ परे आ जगा
मा जा छे॰ तारे मा फ्रूज्यो ऊने
जणू छे॰ अं ने तां ह्मा कुउ छे मे॰
ह्म क जा ए जा ह्म॰ ई जं जां ह्मो॰॰
ए म जणतां जणव टां॰ सा त्त
गार परस पिईग आं छे॰ तारे
पछे पजाण्यो हूता जाना कार
मान आपूछे॰ फे ईश्वाक जं
तंमे जण्यो॰ तारे फुं जं मे फउ
गे॰ ई आ पाकुपरपर दे॰ गारु
अं मं फे आ जणया अं॰ [illegible]

ના ખોદાતાલાનુ ખર માં નખા
મુ છે : જે ઈસ્આ કુલંમતંમે લખ્યે :
અને પના કુહોજે : મતંમ દરઅ
લં ખા હે : તે મતંમ દરરમા લં
ખા હેનુ : નાં મ જારે સાં નખા છે :
તારે તેના મના હેખત અઃ કુલં
[illegible] મ મા પાખાટીગ આં છે : અ
ને [illegible] લં મ તો અખા હીઅરદા ખા
ર [illegible] : તાં હાંએ કુ હજર પરસલ
ગ માં ખુખો દ્રુ છે : અને કુલંમે
અરદો ખી ઘો છે : તારે પખા ખો
દાતાલાનુ ખર માં નખા મુ છે :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2010 Before -Satpanth Manuscript 24 (174)

एनाम महंमद न पेदा न करता;
तो कुआन आस पेदा न करता:
अने पोतानी खोदाई पण जा
हेर न करतः ते मोटा पंलंम
तंमे लखोः अने पपात तंमे कहोने;
महंमद रसुल अलाह: तारे कलम
तो लो हुकम परयां नथी आवो: अने
कुदरत परमा लगी लख्यु छे:
तने तां हां कुछ छे: जे महंमद रसु
ल अलाह: एम लख्यतां लख्यता:
आ कुदरत परमा पहेगा आवा छे:
आ कुदरत परम पेलाः अने नआ

रेहणा रपरआपाणां: ए पांओ
फुलोपने: मा पास हणारपर
अपाई गाआंछे: तारे फुलने फुल
मोंः लखा ने तई आर [illegible] छोछे:
तां हांजं म ले पाआ आपर नो: फुं
लंमोआं पूरण लखोछे: अं नेता
रे फुउ छे: ह फुल ए ला हः ई लंला
होः म हम दररआ लला हे: एमा
री तफुलमाना पेदा थई छे: ता
रेप जा फुलं मे पूछ छे: फेई आ
पाफु पर पर दागार: ए फुलमा
आं नामां हो: फेर लोफ आपा पफी

होछे: अने केव डांकु वा गा लवा
छे: ने ए वडी क्रीअत करीने:
पोताने मोक्ष पा लखा यो छे:
तारे थो हां ताला ए पार मा पुछे:
केई आकलं मं तं मेको हों तो:
तं मारी आगवा. ते कलमा नाया
तनु: पोआं न करी ए: ने नआत
मा हे. एक झाड छे: ते उपरे एक
पपा पोर छे: ते झाड कानो तो:
सैनरत ल मां नता के छे: अने प
या कानाम तो: अंतल हे आत
के छे: तने नां परतो: हरेकं आ

इमउ पर: ओ दाता लोना धरनु
फरज ओ अे छे: जे को ईयं दो ओ
दाता लो नो: वारे दं नी अंमांहे:
न ओ आमाहे ओनो फुलं मां पडे छे:
अंने ला हाफे छे जे: हाफ लोठे ला
हेउ ई लं लाहो: मह म दर्र रज लं ला
हे: तारे ते पओ उडी ने: हो ज फेस
रमा ना ठे छे: ते पओ प पा त जई
ने: पाछ मा डउ प र ओ से छे: ते
हां ओ सा ने पांच पौं ता: पोताना
पांच ओं ओ रे छे: ते पांच माहेथा:
जेव लो पाफी ना ओ हो पडे छे: ते

पहे पहे ले कले कु: पारअ तोपे
दापा=अेछे: ते रलोपर रसताअ
रपे: पोदातालो=आगपनई
ने: ते पंदाने वाअ ते दो=आआगे
छे: तांहां पारअ तामपाने पेछे:
केई=आपाकपर वरदे गोरु: ने
कोईपंदो पोदातालानो: नी=आं
माहेन पासाहपनो कलमोपडे
छे:=अंने तांहां कउछे ने: हकुला
ऐलोका: ईलंलाहो: महमदररस
लंलाहे: ते पंदाने तो नमातन
सापकरो: तपापोदातालानो

दहारफुरे: ते फुल मानी मांहे: ए
पडोसोप्पा प्पफुं घं घोघे: तां हां
ए पडो फल लप्पा ए छे: ते प्पर
परअनो =आद माया ए छे: तारे
पछी प्पारन ल प्पा ए छे: ते फुल
मानो ए पडोस प्पा प्पफुं घो छे:
ते मारे तं मे· आ लां म फरो एनाम नो:
तारे फुल मे उठ नअलं म फाघो
छे:=मं नो तां हा फुउ छे:·फे अलांम
=आले फुं म:·जो नूर म हं म दना:·
तारे म हं म दने नूरे·न प्पां प्रघी घो
नथा: तारे प प्पा फुलं मे फुउ छे·

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ने आतपाताल नेः सातआका
शनः तथा अरअ कोर आ नेः लो
कफलंसः तेतो आंसारा पेट माहे
छेः तंमे ए पडी मो थां ई थाः आंम
ने पे हाकी हां छेः तारे आंम ते पु
लणनेः माला सह नार परस
लगाः ते फल मोल पे ओ छेः ते
फल मो पडी पंना तोः आगल
नपने मो मो गत नही पावेः
ते माटे पे थाफलमा नेः फाओ
पो दहा ए वार पडी अफसोः तेपं
हाली फेर लो फउ पर हसः ने

ऐकुवार रकु ल मोपडओ॰ तारे
पक्षा रषो दाता लाते पार माप
छे ने॰ के ई आ फुल मते मे॰ ने
नाम मह मदन ल पर छे॰ तेने
अं मे आ पर ल मां नां॰ मां हेन
पापे दाक रीक्षः अं नेते पक्षा अं
मे णं कछ छ उ॰ ने न पा सा हेप
नाउ मत ना॰ लो कु नाउ मरपो
डी कुरअ॰ ते नी तो पो कु मो टी अ
आस॰ ऐ पा हे मत आस॰ ने ऐकु
दाड माहेः ऐकुलाप नेआपा
स॰ हजार पारः ते कुल मोपडसे॰

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

માન પેદા કરી છાં છે: તે જા પે જે કરે
તરે કા તો: વાછે પેદા કરી દાછે: વા
જેક તરે કા તો: પાં વા પેદા કરી છો
છે: સાકી જે ક તરે કા તો: આગમ
પેદા કરી છાં છે: ૩॥ આ પેક તરે કા
તો: આપ પેદા કરી છાં છે: ઇ પાં આ
રપદા રપ પેદા કરી છાં છે: અજોજે
ત્રિ નજ પરતી ઈલ: સાલ પાતોલાં
આલેપ સાલંમ: તારપ છે પરા
પ્યો દાતા લોનાં પમ માન આ વા છે:
એ નર માણસ એ દો સદાર માતારણ
એ હજ રત પી પા માતારણ: એ મ

हंमंद्रमास्र कु लंपप मारा॰ धर
सतने हे पपप माहाराः॰ धेनर
मानल कु माहाराज॰ धे सतगोर
जा॰ तं मारा पोंतमा हे पा॰ अमे
मार मान मे द्दा का द्दां छे॰ तंमा
हे पा का आमां मां नंछ परे॰ तं मंअ
पतीआर द्दरो छे॰ तार प छे तं
मने सरवे पेगाम्पर ना॰ अमे
स जद्दार फर छ छ॰ तं मारा नूर
ने तं मारा नाम सःने अंमा मा
हेर फेरी सू॰ धे पांपर मान आ
पां छे॰ तं मा मार गुण ना जवाल प॰

तेमाछे: अहोमेहे कनमाराई
ज:सल वांताजा: आजे वसतं
प:तारेह कुम अ जाई: नर महम
दमो सतमा ना: मकरामउमरे अ
समारमि अंछे:- ते असमारमई
ने:माइ उ ७९ण मासोग आछे: तां
हां कई नेमह मदने करे कउछे:
केस नेंआजे कुम: नो माउ: ता
रेमाउ कुउछे: के आजे कुमसजे
मतमो णाछो: तारे मह मदनेंह
रेकुउछे: केने नोत मंदो छे: तेजा
अंमे नुर हई उ: मंमात केनोमा

2010 Before -Satpanth Manuscript 24 (174)

हो छे ० रे पा छे ० तारे वा छे कउ छे
ने ए कपं हो ओ हातालानो ह
छे ० तं ए कव हो वो हा लानो हप
प छे उ ० नो नर मह मदना ० ता
रे मह मद ने नरे नो उ छे ० ने पा
ए तो पोताना मोर साहेबना ए छे ०
ने मो वांई तपात कपाराई करे
छे ० तारे पजा मंह मदने नरे क
उ छे ० फेदना आसा नई ने तफे
फे कां म करे मारे त पाए ० तारे
पा ए कउ छे ० जे फां ई आ मारा
मं नं सा आँ पओ : हतो ते फां

मफरे सः जो नर महामहदना:
तारे महमदने नरे कउ छे: ने न
जोई ए पांदाने: पोतानु मन मां
नु फांस करे: तो पांपडरे तु पाए:
तन मा ए पप धण छे: ने पांदाम
स पाए: आफपनाहफम पनां
ने फाहा आफपने गमे ते करे:
पांदानफे फगन छे रे पाए: ता
रे पाए फह छे: ने मन माहे
पाए प छे: जो नर महमदना:
तरे महमदने नरे कउ छे: पा
ए तु तो छ पाईने रहो छे: तते

સરપેની એપણરૂએ છે: અંને તા
રએપ તો ખોએ નોતો નથા: તન
મા એ પી એ પછે વાએ: તારે પછા
પાં એ રૂઉ છે: નેતં મે પં એઘાં ને છેઃ
ને અમને ઘાં ને ગાર ખો છો: નોનૂ
રમહંમદના: તારે મહંમદને નૂરે
રૂઉ છે: કે તો પાં અલા અમે તા: પંચ
તાસાહેપના ઘાં નેઅપરૂ છઉ: મૂ
[illegible] પા તો અપઘં ખત છે: મા ઈપં
[illegible] ને તો એખપોદા તાલા છે: તા
રે મહંમદના નૂરઉ પરે: પાએ ઈમા
ન [illegible] પડ છે: તારે મહંમદને નૂરે

फुउ छे॰ नै फुलजोतई अप्पनोप
ड्रेत पाछे॰ तारे पाछे फुलजोफुहो
छे॰ अपपलफुलजेतई अप्पः॰ हो
होणफुलंजेआद तु॰ असोदहे अंनो॰
हफुलछे ला हःई लं लाहो॰ माहाज
हरदम लं ला हे॰ पाछे दहो अला
सतीफुल होः असोदपंनः॰ महंज
हीनः॰ अप्पदहुः॰ छेपोफुलजोपडा
नेमूमनप अछे॰ अंने महमह
नाहीने माहे आपाछे॰ तारे पा
ऐपोतानापीर पेगांप्पर फुप्पल
पीछः॰ तापोतेन प्पानो उमतपई

ने रहा छे: ए वात ते साचा ए गो
णनी वात समही छे:० अ हि मे हे
कम परताई लेः स लया तो: आले
पक्ष लं मः तारे पखा ह फ न अ ला
हि: नूर म हं म द ना मोक्ष तपाला:
फराम उ परे अस वार थ आ छे:
ते अश्व वार थई ने: पां छा गूफा
पासे ग आ छे: तांहां जई ने मह
म द ने नूरे फउ छे: फेस लां म आ
ले फ म रे पां णा: तारे पाणी ए फ
उ छे: फे आ ले फ म स लां म ल फो
ण छे: तारे मह म द ने नूरे फउ छे

फेने नो त प्यंदो छे॰ तेना अंमेन
र छ ई अे॰ पण त फेनो प्यंदो छे रे
पांउें॰ पांणा॰ तारे पांणा उफउ छे॰
जे उफ प्यंदो थ्यो दाता लानो त छे॰
तेम उफ प्य दो थ्यो दाता लानो रूप
पाछउ॰ जो नर महंमदना॰ ता
रे महमदने नरेनो उ छे॰ जपां
आतो पोताना: जोर मा हे जाऐ
छे॰ अने मोटांइ तथा त फ्य री
इफरे छे॰ तारे पछी महंमदने न
रे फउ छे॰ जे दना आगाज इत
फेप पां मफरेरे पांणा॰ तारे पांणा

કઉછે: જેક ઘે મારા મન માંહે આ
પમોતં કાંમ કરેસ: ઓનામેં રેમ
હિમ દનાઃ તારે મહિમ દને નરે કઉ
છે: જનનોઈ ઘે પાંદાને: પોતાનૂ
મનમાનૂ કામ કરે: તો પાં પડરેત
પાંણી: તેન માંહે ઘે પા દાં પણ છે: આં
ને પાંદાથી નૂ પા ઘે: આ હિપનાહિ
કમ પંનાં: જે કાંહેસા હિપ નેગમે
તે કરે: આં ને પાંદાનૂ પેકગાનૂ
છે રે પાંણી: તારે પાંણી ઘે કઉછે:
જે મન માંહે પે પા ઘે પાછે: જો
જે નૂ રમ હિં મદનાઃ તારે માહેમ
દને નરે કઉછે: જે પાંણી તૂતો

[illegible]

छो: जे अमने गंना गारप
होछो: जो नर महंमदना: ता
रे पणा महंमदने नरे कउ छे:
के असत फर अंला: तोप्यां:
अंमे तोप्यं दाआहेप्प ना: दाने
गार छउ: म जे भाहे तो ए प्पघ
पाछे:० मा ई पं ... दाने तो: एक
रा हे प्पा छे: तारे महंमदना नर
रउ परे: पां हा एइ मान अंफ
छे: तारे महंमदने नरे कउ छे:
जे कुलमोत ई अप्प मोत पड
रे पां प्पो: पं तारे पाछा ए फल मो
कतो छे: जे अ पल फल मे तई प्पः

[illegible]

2010 Before -Satpanth Manuscript 24 (174)

અહો જે હું તે જ પ્રગટાઈ લઉં સાભ
વાં તો લાંઃ આલે પસાલ મઉંઃ તા
રે પખા હકુમ અલાઈઃ નુર મહં
મદ મુસતફા નાંઃ ખ્યોરાપઠપ
રે અસપાર પઈ નેઃ અગ નં ગો
ઠ પા સોગ ઓ છેઃ તાં હાં ન ઈ નેઃ
મહંમદ ને નુરે ફઉ છેઃ ફુસલાંમ
આલે ફં મરે અગંનઃ તારે અગ
ને ફઉ છેઃ ફે આલે ફં મસલાંઃ ત
ફો ઠ છેઃ તારે મહંમદ ને નુરે ફઉ
છેઃ ફે જે નો ત પાં દો છેઃ તે ના અં
મેનુ રછ ઈ ઉઃ પંફાત ફેનો પાંદો
છે રે અગંનઃ તારે અગ ને ફઉ છેઃ

ફરી ફંદો ચોદા તાળાનો. તે છે
તેમજે ફરી ફંદો ચોદા તાળાનો ક
પણ છુટે: જો નર મહંમદના: તારે
મહંમદને નર રેજો ઉછે: જે અંગ
નતો પોતાના જોર માહેના ઉછે:
અંને મોટાઈ તથા તકબરાઈ
કરે છે: તારે મહંમદને નર રે ફઉ છે:
જેહની આ માહે નઈને કેચુકાં
મકરે સરેત અંગ ન: તારે અંગ
ને ફઉ છે: જે કાંઉ માહે મનમાં
આપસે: હતો તે કાંમ કરે સજોને
રમહેમદના: તારે મહંમદને ન
રે ફક છે: ન જો ઈ અેપંદનો:

2010 Before -Satpanth Manuscript 24 (174)

જે પોતાનૂ મંન માનૂ કાંમ કરે છે:
તો પાંપ કરે તે અગંન: તમ માહે
છે પણ ઘણા છે: અંને પાંચ ઘાપા સૂધા
છે: સાહેબના હુકમ પંનાં: જે કો
ઈ સાહેબના હુકમ વાના: જે કોઈ
સાહેબને ગંમે તે કરે: પાંચાનૂ કે
ફ ગજ છે રે અગંનં: તારે અગનં ક
ઉ છે: કે મંન માં કે વા અવ છે: જો
નરે મહંમદના: તારે માંહમદને નૂરે
ઉ છે: કે જો રતાનૂ વાળે ધા ગાલે છે:
અંને જો તતાનૂ પાંણ માંહે છે: તમ
માંહે એવા છે પણ છે રે અગનં: તા
રે પણ આ અગને કઉ છે: જે તંમે પં

प धांने छे।ः जे अंमने गने मारको
छेः जो नूर महंमहमदनाः तारे पधा
महंमदने नूर रेफउ छेः तो पांचा अ
ला अंमेतोः पंदासाहेपनागने
गार छउः अंने मन मातो छे प
धणी छेः नाईपधाने तोः छे क
पोदात जाछेः तारे महंमदना नूर
उपरेः अगनं ईमान आफउ छेः ता
रे महंमदने नूर रे फउ छेः जेः फल
मोतई अपनो पडरे अगनंः ता
रे अगने फलमो कहो छेः जो अ
पलफल मेतई अपाः दांहंमक
लमेसादेतः असोदहे अंनः हपु

ना के ना हेउ ई ने ना होउ० महम
दद रसुने ना हेउ वादहोउ अं ना
सरा फुंल होउ असो दयं नः महंम
दीनः अवदहउ वेरसुल हउ वे
वो फुलमों पडीने॰ मुमनथ आहे
अं ने महंमद ना दीनमां आवा हे
तारे अगने पोतानापीर पेगं
बार फुम्हल फीधां छेउ पोतेंन बा
ना उ नातप ई ने रहा छेउ दीना अ
गनगफ ना वात सही छेउ अहोने
हेदून वराई लउ सलवातो लांउ
आले वसलंमः तारे हकुमअ
लाहीउ नूर महंमद मुसतफानोउ

ध्र रम उपर अग्रापारमां छे: ते
अग्रापार पईने: माप गोपापाओ
गआं छे: तो तांम ईनें मह मदने न्र
रे फ्उ छे: फ्रुस लां मा ले फ्रुं मरेण।
णड तारे म्मापे फ्उ छे: फ्रुं आ ले
फ्रुं मम लां मः पारे हें मत अलां हे:
पेपरफ्त हे: अमे मा ल हे: अं
नेतं मे को पाछे: तारे पमा म हं
मदने न्र रे फ्उ छे: फ्रें नो त्रपं
हो छे: ते ना आं मे न्र र छे ई छे: प
उ त्र फ्रे नो पं हो छे रे मापा: त
रे पमा मापो फ्उ छे: फ्रे हे तो पं
हो पो हा ता ला नो छे छे: आंने उ

मतनपार रसू लांः मा लं ला श्रा
लेपआ लां म नी छं उः ज नूर म
हं मद नूः तारे महं मद ने नूरे नो
उ छेः फ्रे पां दो पाम तो गा दीपा
छेः अं ता म नी मार छेः तपम
से फ्रा न छेः तारे पपाः महं मद
ने नूरे फ्रे उ छेः फ्रेदं ना अंा मा हे
जईनेः ल फ्रे फ्र फ्रां म फ्रेरे सा ल
पंदा पाम पामः तारे पपा पापे फ्र
उ छेः जे सा हे पं तो पं दो पाम
छं उः मज पी तो फ्रां ले नपा लेः
सा हे पम ना ह फ्रे म पं नांः जे फ्रांई
सा हे पने गं मे ते फ्रेरेः पंदा

ना आत पु कां ईनहा पा छे: अंमे
तो पं हा प्पा प्पा आ हे प्प नो छे ने
छे उ: मुन गा अप्प घ का छे: ना
ई पं छा छे ने तो छे कसा हे प्प छे:
अं ने नप्पा कां नूरप्प रं क छे: नो
नर गाहगहना: तारे गहंगहने
नारे क उ छे: ने कुल मोत ई अ
प्प नो पडरे तपं हा प्पा प्पे: ता
रे गहंगहना नर उ परे: प्पा प्पे
ई गा न आं कडछे: अं ने प प्पा
प्पा प्पे पुल गा क हा छे: ने प्प
प ल कु ले [illegible] त ई अ प्प: हो हं
ग कुल मे सां हंत: अ मो हहे अं।

[illegible]

ते वस ते म: तारे पछे ख्यो दाता
तो नुपरमा न आपछे ० ते पा
मारे गुण मांहे था : सरवे अेअर
थ्यां थी छे : ते पामारे गुणना कहा
परकार छे : ते अेर पे गुणना :
कुन पा लख्यां छे : ते मा ख्याख्या गु
ण देख्याने : महमद नाम वरतो
धर्म पुरण बन्या छे : तेथा थने
तोते ठाकुरी : पोताने गजे लगा
डा छे : ते मन था महमद : जस
तथा ते कुछ छे : तेथो दाता तो
ते मो छ छे : ते पथा मां फेछे नेहु

એમ એવા આ ગુરુ ને તો: રૂપ
નથી હાં છે: તે તો આપ ન આકાર
નથી રૂપ નથી હાં છે: તે આવા
ગુરુ ને તપોતાના કરી રાખ્યા છે:
પંથ ને કોઈ જાણ વાળા નથી છે:
તેમાં મારગ ના વેગર કોઈ ન
પાવે પાન: પંથ: આં ગાન: આ
પ: ગાયેલા એવા મારે ગુરુ ના વચન
રે છે: એ જ આ હાતા લા એ પર માં
પ છે: તેને પાસા કે પા ફે છે: આ
હાંજે હે તે જ પરાઈ ન: સાન પા
તો ળાં: આ લે પ સા લે મ: તાર

पछे मो इता लोन पार आ-नआ
पछे: जे कोई जीवां दास-वाटे गुरु
मां हे पापे हाथी हां छे:ईसा ते लोक
मां पे ईजांना धडण हसे: तेपाप
मां मोकुर हसे: शाजे कोई जीवां पु
स-पां डा गुरु मां हे पापे हाथे आं
छे: ते लोक मां हे म सताई धडण
हसे: ते पाप पा तरफ हरो: रा
जे कोई जीवां दास-अंग ना गुरु
मां पापे हाथ आं छे: ते लोक मां
हे जे ला ई धडण हसे: ते प वा
लां म हसं: ३।। जे कोई जीवां दास-

आप गुर ठांथा पे दांध आछे॰
ते लोक मां गरी आ इथ कल हसे॰
ओं ती मनी गारी हसे॰ तथा व
पी मस ऋान हसे॰ मा स मओ हा
ता ला रे फर मा पू छे॰० ने ओ
वा मारे गुरु नां धाउ मार मा
न पे हा क्रा आ छे॰ ते मां हे आमन
गुरु मने तो॰ ओं मे अपती आर
आ लो छे॰ ते आमा गुरु मने तो॰
अप ल आपर॰ अम हा आप
ही लग पु॰ ओं लाण रेक फू फा
हां छे॰ रे मनआ महंम द॰

मरा तपत उपज्यो छे ॰ अहो मेह
तन प्रगाई लइ ॰ आजपाले जा ॰
आले पस लंग: तार पछे पजा ॰
पोहा ताजन्ह पार मांणीआ पहे छे ॰
ते मां आरे गहणानी पकपतज
आ छे ॰ ने कोई आदमा आपगह
णमाहेथा: अंमे सरणां छे: तथा
पेदा कां छे: ते ने पनाआ
मांहे सो पारे: तथा मरा तमां
जा ते गाहे रे:१॥ ने कोई आदमा
अगान गहणमां था: अमे सर
णा: तथा पेदा कीदा छे: ते नेजे

અમારા મંન માઆપસે તો:
અમત માળા છે ગાદે સહ: નહી
કુંઆગ ગનં માહ લખ કરસ:
ગરુ ને કોઈ આદમ: પાંઠળ ગ
છ માંહે થા: અંમે સરણાં છે: ત
પેદા કીધાં છે: તેને અંમારા
મંન માઆપસે તો આમત માં
ળા છે ગાદે સહ: નહી કોં પાંણ માં
હ લાંખ કરી સહ: ॥૩॥ જે કો છ આ
દમી: પાછે ગઠ છ માંથા: અંમે સ
રણાં: તમ પેદા કીધાં છે: તેને અ
અમાંરા મન માઆપસ તો:

[illegible]

ના નુર પડ્યો: દાદા આદંમને
પોતા છે: દાદા આદંમ પડ્યો:
સાઈ દાને પોતા છે: તે પછી કો
રાં આપા છે તો: દં ના આ મહે પરપ
રપા છે છે: છે મ બ્યો દાતા લ છે:
પર માં પૂ છે: તે મસતગ: મ
પાર પુ: મહંમદ મુસત ફાનુ:
તે આં પે મસત ના પાર પુ તમાં
પાપે દાખી ધૂ છે: રાપેસ નામ
પાર પુ મહંમદ: મુસત ફાના:
તે આં મે મસતનાં અંદ માં પાપે
દાખી છે: ॥૨॥ આંપ પોછમ

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

हुं मद जो सतपंथानां: ते अमने सो
तनां: तरापत मांथा पेदा कीधां छे:
[illegible] जाने प्रकार कुः म हुं मद जो
सतपंथानां: ते अंमे जे सतनां:
ज प्रकारनां पेदा कीधां छे: ८॥ हुं
त प्रकार कुः म हुं मद जो सतपं
नां: ते अंमे ज सतनां: नूर मांथा
पेदा कीधां छे: ९॥ ज प्रकार कुः म
हुं मद जो सतपंथनं: ते अंमे ज
सतनां: मंद मांथा पेदा कीधां छे:
[illegible] प्रकार कुः म हुं म
द जो सतपंथनां: ते अंमे ज सतनां

ની ઠા મા ખા પે ઠા વ્રા ધાં છે ૦ ૧૧॥ ખા
ત્રુ ખે ઉ અપાર કુઃ મહંમદ નો સતપંથ ।
નો ૦ તે અંગે ગ સત નાઃ ક ઉ અંતખા
ખા પે ઠા વ્રા ધાં છે ૦ ૧૨॥ હા ખ ખે ઉ અ
પાર કુઃ મહંમદ નો સતપંથ નોઃ તે
અંગે ગ સત નાઃ સંખ્યા પંતખા ખાપે
ઠા વ્રી ધો છે ૦ ૧૩॥ હ ઈ અંપ પાર
કુઃ મહંમદ નો સતપંથ નુઃ ૦ તે અં
ગે ગ સત નાઃ ના પ રાન મા ખા
પે ઠા વ્રા ધાં છે ૦ ૧૪॥ અંતર ડ અ
અપાર કુઃ મહંમદ નો સતપંથ નો ૦
તે અંગે ગ સત નાઃ સં તો પુ ખા ખા

પેદા કીધા છે:૧૫॥ હરદે મધ્યા
રખ્યા: માહે મહાદેવો સતપંથાનાં:તેઓ
મેનસાતના: સતસ પ્રભુ નાખ્યા
પેદા કીધાં છે:૧૬॥ હાદી ઘરખ્યા
રખ્યા: માહે મહાદેવો સતપંથાનાં:તેઓમે
નસતનાં: ક્રપર માખ્યા પેદા કીધા
છે:૧૭॥ પગાપ્રેઉ માહ મહાદેવો સ
તપંથાનાં:તેઓંમે ન સતના:પં
દરા માખા પેદા કીધાં છે:૧૮॥
રોમરાઉ મખ્યા રખ્યા:માહા મહાદેવો
સતપંથાનાં:તેઓંમે ન સતના:
ફાલગા સમાં ખા પેદા કીધાં છે:૧૯॥

छ जख्यो दात लो छ फरजा पछे:
अह्रो मे हेतन प्यराई ले: सयपा
तरे लाउ आपे सल म: छेरलो ता
राफ: तेन प्या महेम इना नूर ना
फ्री धी छे: रुआ तारे न प्या साहेप
ना॰ तारीफ सा ल प्पा ने: मेहेर
न प्यराई ले: पोता ना इलमो
नपा: फुल मोत ई अ प्यनोप
डो छे: अं ने तां हां फुउ छे: ने अ
पल फुलमेत ई अ प्या: दोहेम
फुल मे सा हादत: अ सद्हे अं
न: हफु ला छे ला हा: ईलो लां हो:

[illegible]

નામાના: હફ્રીગતંતંમામ:સ
દસપરછ:નેફ્રોઈઆંછે:સા
મપોનરાંનાગ્રારહ૦તેપારીન
તીઆપતરે:આપાણોગાસં
સારહ:નેનરનામપાંસે.તથા
સામપો:તેગતનેમાતફ્રસ
લંમછે:પ્યાઈપ્યાપડીફ્રસલા
મછે:મેહેનેદમેરાપ્યફ્રસલા
મછે::
મોટાંનરનાઆંનીપ્યાસાઆ
તલપ્યાછે.તેપછેપક્ષાપ્યો
દાતલાનફ્રરમાનઆવ્યુછે:

અહોમે તેહુ ન પરાઈ ઘઃ એલ
પાતો ઘઃ આ જે પસ ઘં ખઃ એતા
રીફ સરૂપેઃ નબ્યાસાહેબ નાઃ નૂ
રના પ્રીધીઃ તે નૂરનામુ જે કુઈ મા
નેઃ ને કોઈ વાંચે તથા સાંભળેઃ
તે નૂરનાંમુ જીલ્યાને પોતાનાં પાં
સે રાખેઃ તથા લખીને પોતાના ઘ
રમાં રાખેઃ તો ખોદાતાલા તેનેઃ
પોતાની પંનાહ માં ફરીને રાખ
સેઃ તે પંદાને દીન દુનીઆંમાંઃ
પોતાનો કરીને રાખસેઃ પછી તે
કોઈ પંદાનાંઃ અદલ આપા પાંમેઃ

पां अे तथा सांभलो: तेपं डा ना ध
नों: तेनो मा त पेता ना धना: तथा
प रनं न: फुप्पा जा ना धना: सा
हेंप्प फाळ ल फर सें:॥ रात रे पपा
प्पो डाता जा नू फ रमां(न) आ वृछे॰
जे फो ईनं मात प मा नें: नूरनां
मू पडे तथा सांभलो: तेने देसमं
न दू फो धा टे: तेपं डा उ परे सेतां
न: प फर आ जसे नही॰ ते नें आ
प्परीत ना आ आर था: सा हेप्प
रुप्पा जसे: तेने गा ळ पर दे: त
था सई दून्नो सप्पा प्प था से॰

तेनेहं नी अंनातो कां.न मारावत
लोसो:गकुगतारे वचन खो हतालत
नुमतर जों नआपुछे: ने कोई
नमनाम हंग ह मों सत कार छे: नर
नां गु लख्यु छे ह ते मा हि नै कोई सं
ख्यांक सो: ते तो कोमर पासे ह
अंनेनो स हिकरी मान सो: तेजाव
पाकी गु मन हि सो: ते मोराह हां
सल प सो:गजातारे वचन खोह
तालाछे मर मापुछे:: नो कोईनं
मानी राते: नर नागुपां मे तपा
सां गपे: ते पंदा ने स ख्याखल
खो छे: त ख हिनार: नुकासे नेमा

ત પેગાં પર ને માડાનો સપાપ

પાસઃ ૫૩૩૭૦૦ પળા તઘણનારઃ

પહીપાંન છો ડાંવાં નોસપાપપ।

સોઃ ૩૦૦૦૦)) જેવ લાસપાપઃ દરેપુ

મપંદાઉ પરેઃ પોદાતાલઉપગ

સોછેઃ પપાને પોઈમાણસનર

નામ પાંમે તપાસાંનમેઃ તેનેગેપ

માંપી આવાળ આપરોઃ તપંદા

નોમરતપો મોટો પાસેઃ ગામ

પપાપોદાતા લાનપમાન આ

પછેઃ તેઉ કનોકળ કરીછેઃ ને

સલતાંનગળનપાનેરે હે મતં

ફાજે:ઓનેએદાતાલાભનરનાં
જુ:પેનરપાહેપા:નપસોનપાંપડત
રપાઉતારીફાડાછ:૯૯૯॥તેહર
પાઓંજનાને:ધપડ્યોસાઆલ
પઆછે:પપીજંનમાહેનાંછેછે:
હપેતેહરપાતો:સૌલતાંનગજન
પ્યા:પ્યાદસાનેઆંજેદઈમપ્રસ:
તારેતેપાતનાપ્યપ્યરૂ:સલતાંન
ગજનપ્યા:પ્યાદસાએસાંજપાનો
તો:તેનેઅઢારદાડાનાપાટહતા:
તાંહાંપપાપોથાસાંમામાલાઆ
પો:તારેસલતાંનગજનપ્યા:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

છાછે: તે પૂ તાલ પોતા ના આ
ગમ: આંકડા ને પાં મા નો ઈ છે: તે
તે નૂર નાં જ પાં મા સાં મ ક ના ને:
પ્યો દા તા લા ને સૂ પુરાં નાં કાંધાં
છે: પણા ઉઠ ચો રપ્યાં ના કાંધી
છે: અ લાં મ ત પા ન લ: તપા મ સ
પી ન દે આ ઘ ધા કા ઘી છે: પણા
પર કાજ તપા: તારી પા ઘ ધા કા ઘ
ઘી છે: તારે તે ન ર પા પા છા ઈ મા ને:
તાં હાં મ ગા પા લી ધા છે: અને સ
રપે ન ખી ગ ત પાં મા નો ઈ છે: ને હ
જ ર ત મ હાં મ દ ર સ લાં બા ના: ।।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2010 Before -Satpanth Manuscript 24 (174)

ते पो प्यार हुकम बार गो ल्यां ना: अ ला

दफो थ्यां छे: ते पुहम बार घरां मां

न सत मां मं प्राप्ता दी द्यां छे: ते प

डी सो आ ती: ते पडी पेर प्यां ला:

ते पडी रा हात ते प्यो दहताला छे: ते

ने प्य गरमा छे: ते प्यर पुतस्सर पे:

नर नां मा ना छे: जे को ई नर नां

मपां मे: तपासां न को: ते ने हूमद

पा न ही पाछे: ते ने हुकता ला पोता

ना: पंना ई पा हे राप्प से: जे को ई

पे दास न प्या मकं मदना: पां मे

तपाजं मात सां न पे: पका नर

ઓંમ્ નલખાને પોતાની પાસેરાખે:
તેગ્નારેન માગ પડે: તારે સરદારે
ફાંફો: નરના નરાખે: તે નરના
માસાપે સાજ હો કરે: તો ફોનમા
રપેગાંપ્ય રનો: નંમાનાં સખાપ્યમા
છે: આંને ખાં દાતાલાપોતાને પા
સે રાખ્યસે: કુપાતારે પખાપ્યો દાતા
લાછે ફરમાવછે: જે કોઈનખા
માતંમદની પેદાસ: દલ દઈને
નરનામ: પાંમે તપાસામજો:
તેને ઉપ્રફનાર ફેરા: ફલપડ
નો સોખાખપાછે છે: આંને પખા

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

તે સરવે આપાર: પહીણ પરાઈ તે:
હજર તન પાક આહે પાને છે: જે
કોઈ તં મારી પેદાસ નહેંનાં મ:યાં
સોધઈ માન સૂ પાં મે તપાઓાન
પોહ: તે પંદાને પોદા તાલાપોજદે
સોહ: તપાપ આકર મપગ આકુ
રઓ: સરપે મરદ તપાજ્ઞો રૂત:
જારે તે માંજઈને જોઓ: તપાજ્ઞા
સમાંને: સરપેનાં પડાં કરે છે: હ
કુ તાલા તે પંદાઉ પર: રેહે મંના
ન જર પુર સો: પશા મરદારે:
સપાટે તશી ધી છે: તે કુ હજાર

परम भगत: गभं मारहि नेपांह
गा करओ: तपासारी उ भरनारो
ओराप्या: तें नोसपेस प्याप्या: ते
कुपंहा नेपगओं छे: तेप्यांहाला
लाए: पो तपगसाँ छे: ते नाहस
में नंहपे पाओ: तेपंहा उ परके
नो: धरना हू याल से नहीं॥॥
पप्यांहा ताला एपर रमा कुछे
ओ कोइ पंहा नाइ करीने: नरना
भुपांओ तपाओं मपे: तेपंहा
ने उक फना र नो: उकरों ओ राप्या
नोआप्याप पाओ: ते नेपेर लु

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

पेगाम्बर तोइ मसा कु रा ज ना
पाउ मो था पेगाम्बर तोइ ऐसा
पेलाँ पां सभा पेगाम्बर तोइ
इपा कु पा लाः पाा छठा पेगांम्ब
र तोइ अस मा ई लोइ पु ते नेपां
ना ना गो अ धोः अं पे स अ त मा
कि लेपा छेः नो कोई नर ना मुः
पां से त पासों स कोः ते पं दु
ना दस ह जार गं ना हो छेः तोपं
फ इ प प ले ना प ले प्या छेः पथा
प्या ना दस हजा रः हपे ला छे:
ते पं दु ने पुा छेः स स त मा हे पाने:

ते पंडवाने ज सत गोरांढ अेला
अेवाने पडाध सेइ पधारोन
करां सत वाडास दीः तेने पधर
सता ज सत नाको रेलईनॉसे
ते पंडवाने ज सतनो राकातमो
टाछेइ पधा ते पंडवाने दीलमा
हेः नेर लोजो पाप्रा छेः तेरला
पंडवाना धंनां होछेः ते पंडव्यो
दातालाछे पगआछेः ने
पाका पंडा जहत करसेइ तेप
रकतसरपे नरनां जाना छेः
गढना पधा ज्यो दाता ला पधर

मा पुछे : जे म ला छे पोहोंचा पुछे :
छे पकारस तो न फीर : शा पाणा
पारसता न फार : शाते पोहोंचा पु
पंडाना : कपर मां हः पुद्यां पडने
पाने फाने आपसे : तारे ते सा
धे पंडा : सरपर धासे : छम पार
सता फे सो : जे पंडा सां धरे म
त छे : घोर फी आंमत ना हूप
आसान छे : ते पार फत सरदे :
तई आपप फत मा ना छे : होस
तान पाई मा म ना छे : ॥११॥

प ण्णा आंदा नानान. आर मां न
अ पां छे: ते व हाथ पराई लेक
उ छे: के अ हो हजरत रस लेल
हे: हं मारी उमत मां हे था: ने को
ई न प्या म नं महम्मद ने हा: नू
र नां पुपां मे तथा सां न घे: ल
आ ना पोता पासे राखे: तथा पो
ताना घर मां राखे: ते पं हा ने
फा ने: जस त मा हे म फा म फा छे
छे: पे दू के ता आ मां हे लग्न छे:
ऊ पां तो सर पे सा आ छे: जेन

[illegible]

छे पाती जुंधो पुरी नर
नाम जप्य छे: नप्पा साहेप्प
पां मा: अ हो न प्प राईला:
फर पां न को: प्पा सप लाह
रेरे हे भान नररह भ: परपं
आ हनरी जनधं दो पार: आ
पे हो ता ले पु सो ता रा:शा आ
पसभा हे भा नरना पाआं: पे
भाप्पा सा हो सत के ला आ: शा
उस नर भा सारी से सप ना पा
छ: हे प्पो ते भे पा ल क प्पी प्प जीं

डा ई: ३ा हो के तां ने स ख हो ग
आं: अ हो के तां ने क ध न र हा ऊ
आं न त अ पा ही आ दे ग ह है: न
र पा स प पर गर णो है: पा न
सा का ह न आं पर घ डी आ: णा
न प ज क र ग पा ल ते प डी आ:
ग जा पं ह गत कां रं न सर णा सं
सार: पे छ मा ना न ला गे मार:
गना उ स न र पा ल द णा न र प
पा नो: सो न र गो प डे पा छे त
ने णां नो: ग नरे न र य ले स प

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ऋषतां अजां आवे: नूर रूप पहा
नेसा हालो पावे: १ पातुं ना आं
हूरतपा नूर रूप पावे: पत नो सो
तं पपोगं जावे: २ पुआ अतो सो तो
पसतजेआ आवे: जे नूर नां जेप
रपों न लगावे: ३०॥ नूर नां जां
पेछेसे नां आं: जे पों छपा सो
पो लपुर हाप्यां। नूरना नूर महम
हुपा पुरों पप आं नो: पेहासछन
पुहैपप पछां नो: २ नाआ लपु
आनो लपु सो नां न: नूरना

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

भ पंनां आ:तेवे ते हना अं
गपीा नर न पा भहभ ह पंनां
आ: भा छ न पी भहंभ हना न
र पी· सर पे रं मांसं साार: ते भा
मां हास र न फी आ फेरतार:
गपाा अ गोर नर न पी भहंभ
ह पि फी: प्य ल फों सर पे सें सा
र: तें गोर नें से सर र मंतां सा
पां भाण नें न लोगतीयाार: पुा
परपें भ आ गोर नर न पा
भहभ ह ई भा भ वनमां पुा: ते
गोर नी उतपत· आ ह अेत

से न जाणु: णा जे फु रषां मां
गोर नां नां म छतां आर: ते मा
आपा म आ सा पम त ईमा म:
छे गोर छा ना छुता ते सा हछे
पर गार की आतं मा म: ॥
पर थं म सा ह छे न रं ज नां था:
आ गो रे म गत कारं पा फा आ
दे हे फु सा: ते सा हे मो मदे
पापा फु: आ पे फा ता आर सा:
सा ते अं नंत दर पं था: नर
ना पा पहमद ने पेमो ॥

तेआनयने अंलाईपा
रमांतेमेनईप्रेहेप्योः॥१०॥
तेसाहानापनरआगोरई
मामपछाड्याः आगोरआद
अंनंतउतपतः पलाएतसे
ननांक्याः॥११॥ आगोरेसरन
तेमाअडलाप्रआपामप्र
माक्याःतेगोरआदअंतउ
तपोतनरईमामपांक्याः
॥१२॥ एनरगोरनासाहाना
तंनपीआपःमोतंमेपांमे
पसराप्योःतोनसरेहासपा

॥१३॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ए दी अंत पेदी अतः हाईत
र पछ्या एः रजा ने मा अंत ते
मा ज अ प अकु जं आ ईः आ
गोरषा अकुने जी ती पडा
ईः ३०॥ ने आप पु ज साहा
स मंत जाएः ते गोरनां न
र म जे मंत सुसे पे तो साहा
फूपा जैः २॥ तो मनी पर ना
ई आ गोर फे हेः नी ना दरी आ
ह जो म फा वप्पा डाः जेतं मे
अ द ध र म फा मु जं प छ्यां एः
॥ ३२॥ तां हां आ न ह जा र फुं

ॐ १ल ७लः आ गोरे द आव
मारीः तमे सो प्रोरे म मनह
लाजः दरी अ कीस पाल फरीः
॥३३॥ जो गोरे उ त प त ज वंद
आ पी तीः ते मां प्रा प्र म ते प्रो
सरदी ताः ३ प ॥ तो म ना पर
नाद्रिः आ गोर पे हेः सो पाद
री आव क अ प्ररी प्रा प्र जो लेः
तो घर मं म मा अ र वे उ मो झ
जे तेः ३पा॥ ८ उ त प त ई पा म
ना सा हा दं लखा त ईः आ ले
ने मा गोर ई मा म म पेः॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

ते लार:: नप्या उ नाल यम्नगोरे
फी म्आम्रं पारःपथातेनरफ्रे
जे दन उां फी णे लां नलपाइःनप
कं नफी तां हां नप्प्र पंतम्आ ईःपर।।
तो मनापर चाइपरथें मनर
पाउ तपंतआतपारसतालाक:
तेफां हर ता फां म हारउसे परमा
णःपडा परथें मन पराईल
फारम लः साहा ए मे जु दफी
चाःतेगोरनप्या महम हपाः
साहा ए मं मर मं त हीं लोम्पाः
।।५४।।

ते गोर नर फ्रेमत रे छे: अं
ने पडे सो नं म णा अंपाय:ते
फरसता ज पार। छ जन हे हि
नांप्रनो: तं ना आ त ह नारप
रहे नं छे फज पांपः पपापप
ना मा फां ईन फरस ताः सत
गोर मे ज र फा आः तं ना हफे
म सा न पारा फापज मं त हो
आः पपा छे नर फ रा पा आं
प मा हे पा पां स नर फे फ तरे
आ छे: ते ना अस रा पहेल
अज राईल: सरपा ईलः॥

[illegible]

॥५२॥

तां भ्रणा पर आई: कृणा दरी
आप छे तां जपुं: ते मा मापा ईल
फारसात णा पंनां णा पुं: छे तां
मप पुा तं छ पंना: तेने पारापु
दीआ फार मां ना: ५०॥ तो भ्रणा
पर आई: वी णा दरी आपणां
आं मंत पुं: णसापा ईमांणण
छे रहो छे: आसराईल फारस
ता तं मा णा पंना: ते ने हंसा पा
ईमां णा सो छे: ५२॥ तो भ्रणा प
र आई: मोपा दरी आप सप्र
री पुं: ते मा अरपे ने आ मंत मारा:

अदरा ईल फरस्ता नो पंना:
तो मुपन जे सो मुखे देवनो देदा
र: ५रा। तो मुनो परमा ई: पां
च मा दरी आपफरीश्ता: ते मा
सरपे फरीश्ता फुफ लकीता:
ऊरपाईल फरस्ता ते मानो
पंनां: तेणे सरपे फरीशा दील:
५३। तो मुनो परमाई: छठा
दरीआ पछलमां कठ: आंने
सरपे दरीआ दरे मफामुल:
नरपाईल फरसत ते मा
नापंना: तेणे सरपे दरीआ द

रेम फ तारु पह लः॥ ६४॥

तो सुना पर माईः साहमा

हरीआ पमनरकाः ते माआ

रपे नरक हमांनः आं हराईल

पारस ताते मा ना पंनाःत

सरपे नरे लोआ गेनानः

६ पा तो सुना परमाईः हेआ

तें हरीआ पमांःआ ते फारआ

ता नापं नाःआंनेते मोराप

जरपना कुःतें सरपे हपंम

आप लाई आलोआः ते आ

तेना पुजरकु हेत परमांकुः

॥ ६ ५॥

ए पाम्या ते फरसता पोलसे:
अंने पामा करी ऽ अंनत लो
फ: ते सतगोर ईमाम: ए हि द
ओर हेनापं ना: तां हां पार अं
नंत करी ऽ देपनी सांमस: ऽ ना
ते सतगोरे आठ लोक करड
लगा: थे ने ओरा दी आ: अं
ने तां हां गोर ईमाने ए हि द स
मा का: ते देप ने अवा मां का
री ने पा पा आ: ते ना पुलर
क हे हा परमां का: ऽ ला ते अर

पे तां हां सु आ पत जा ना: अ
ने ते छो नको हं नां नी ह रा कीधो
ता ज: तां हां पे ठा सु तां को टे
न हो: ते सर पे का टे म सो ने
करे ने मा जे: दु ला तां हां कर
ज को आ जे दी आ: अं ने टे
पा कां टे म पे री री त: पं छ जे
ने ह पं म आ गो रू ज ना: ते
छो प रू तं ग ते सा का तं: ९०॥
तां हां पा र स ता अं नं त अ
सं पा छे: ते मा मा गा पा जर
पा सा त: तं ने पार मा न ॥।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

तणे पा भ्या·ते कुलमठ पर पे
हप्पणा णां णः णे मणे म हणो
आंनार नोः तेलो उपरे पडोपर
पांप्रः त्वात पपा म कुते कें प्प
रे बुर केः आ नेगो रफ़े णे मं फ़े
फ़ापिः ते ना उ पणा से हर तंल
पा न ताः तेना हर प्प णतो पा
मा तः तेना तीणे घर पे गंप्प
रफ़ेः आं ने मो पा भ्या हं पल
फ़े सा लां पः पांच मा रते नहा
ल फ़ाः पं ते उत पं तहर मलो
पः त्रा पा घे नहरके ना प्पे हा

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

तो कुल ना आ जन मन सो छे: १००॥
छे मा आ करता करता सच्च न
ग करे: ओं ने सो ग्रो सपा तने
करा छे॰ जे सत गोर नाप्रगन
डी संग दरमां: भाई ते के मन
रा आ नो छे: १०१॥ जे नां गो
र नर संकेत पुरां में तरे: आं
ने ते के मनो छे कार: असरपो
र मे ता साकव संः तो न सदं
न को छे देदार: १०२॥ देदार र
दे पा पां मी आ: जे श्री गो र नर

ॐ श्री पास मना राखा छां न: १) आ
आ मोकें री कार मा: ते छा द नो आं
त ज गौर नो फर मांन: १० उा म
मन तो जे आ गौ र जं नां जे आ
लो आ: जे छे मं न करु द द ३ प स
पा स: जे स द क स लां म त नो पं
ना: ते ना हो से आं म रा पर मा
पा स: १० ४ ।। जां पौ धा के न र:
क रो डी पां म सा त न प प्या र:
अं त क रो डी दे प नी पं ना: पं छा
सा हे प ना पो न नों न लो घो
पा र: १० पा। गें छा पै रे अं नं त कु

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ||
[illegible]
[illegible]

ઈઅર પ્રી: ઈઆ નાછે પ્રી ઈઆ।
મં નુ: ઈઆ નં નુ: ઈઆ ગ આં
નુ: ઈઆ ગ નુ આં નુ: ઈઆ ગં
મં નુ: ઈઆ સો મં નુ: ઈઓ ગો
મે મં નુ: ઈઆં અં માર ન મુન
નં: ઈઆ ન ન પો ફા નુ: ઈઆ
ન ન ન નો ન: ઈઆ ન ન ન નુ
ન: ઈઆ ર મ ન નો ન: ઈઆ
ના સર: ઈઆ અં નો પે નુ: ઈ
આ આ નો: ઈઆ અં નો: ઈઆ।
ત ન ર ત મુ ર ત ના અં નો: મો દુ।
પં ન તુ મે દું ની: ગ ના ફર દું મો:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

न फो आ ता ला हू ला: ई लं ला
हे आ पे रो: १७॥ अ नां न फो आ
ता ला हू ला: प्या तं न जा हे रो:
११॥ अ नां न फो आ ता हू ला:
फ ले रू ला फ प्र रो: १८॥ अ नां न
फो आ ता ला हू ला: आ ज यं आ
ता रो: १९॥ ओ नां न फो आ ता
ला हू ला: फ रो ह आ आं मा हू: १९
ओ नां न फो आ ता ला हू ला:
न फो लं ला फ पो आं न: २२॥
ओ नां न फो आ ता ला हू ला:
ह फुं य ला फ रो प्य: ओ नां न

[illegible]

आ ता लो हु लाः २ला ३२ ७ फ ७:
:२ला ओ मां नू फी आ ता लो हु ला:
फी नां ना ला मी नां ना:२ ला ओ
मां नू फी आ ता ला हु ला: हु फा फ
ला स ल तां नो: ३०ा ओ मां नो फी
आ ता ला हु ला: पा ले फा ला ल फ
री: ३ शा स मां नू फी आ ता ला हु ला:
फा ६२ लो म फं ६२: ३२ा ओ मां नू
फी आ ता ला हु ला: हु ई ला मो
न पा: ३३ा ओ मां नू फी आ ता ला
हु ला: फी अ ही र ला हु फं म: ३४ा
४ सो मां नू फी आ ता लां हु ला:॥

आला हि नाल कुरी न:३ पा आे
नां नु पी आता लाह लाः अत
रा ह आर पा:३ ५ा आे नां नु कु
आता ला ह ला: पा टे पा ६ ला
रापी आ ३ णा आे नां नु पी आता
ला ह ला: कु पा र ६ ला नात आ
ला:३ ल आे नां नु पी आता लाह
ला: आ द कु ला आ द लो: ३ र ला
आे नां नु पी आता ला ह ला: तां ह
तां ह रां: ४ णा आे नां नु पी आता
ला ह ला: पा की ६ ला पा प र ला
ह दी नां: ४ पा आे नां नु पी आता
ला ह ला:

प हृ जपमा क्री जोः ४ रता ओ नांनृ
क्री आता जो हृ जोः वा जो ५ जो
नाअरांः ४ गुताओ नां नृ क्री आता
जो हृ जोः सूरी ५ जो मसा छन
रांः ४ माओ नां नृ क्री आता जो हृ
जोः रा ५ मृ जो ५ तमाः ४ पाओ
नां नृ क्री आता जो हृ जोः माज
र जो ता न मोः ४ पुताओ नां नृ क्री
आता जो हृ जोः अंतीं मं जोअं
नसृ जो ६ः ४ काओ नां नृ क्री
आता जो हृ जोः ६ माम मृ जो
हृं मा हृ३ ४ ताओ नां नृ क्री आ

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

વાતાં: સંભેતાં હાંઆ નાં: વઈ
આઆ નાં: વાળા કોર ના લા:
પાંચ હુકમ પાળે તે ના: વલા
કો લકલ ગાં:છ વાં ગા આઈ
આઆ: તઈ આં નો ઈ ગાં ગ:
તપ ના ગાત રૂછ પા: કો પાજ
આજે નાં: થાઈ નલા કલો:
આ લ રાં ન કુછ આં: વેપા આ
આસ ગાં: છ આ આં લા હોસાર
કુ લાટે કો: પાંચ હુ ગ લતેપા
પો હ કુ લ: સાહ દી નાં પાપો
હકતાં: હ રાં નાંપા આ ળ ના:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

हो पाप्या ज नां मा ना प्या मात्र
त लप्या छे॰ ते हो पाप्यां प्या लड
ना छे॰ ते आ हि प पाके पी॰ प
रस तो ज प रा ई ला ला वा छे॰
ते णे लो पा ने न प्या आ हे प्य ने
ओ पा छे॰ ते हो पा नो स प प्य:
प्रो ई ना दा तो न थी: ते प्रप्यो
हा ता ला ना पे छे: ते हो पा ना
प ठ अ त प्य र प त अ॰ अ ला
प अ र ना॰ प्रो र सा ज ते छे॰

એ દોવાનો ફળ અતપરકત
સેઃ જંમા આ કાસપરરહાછે૦
જે ન લકું લખો હોતઃ જેહેન
જ પરાઈ લ૦ હકું મઆહેપ
નો લઈને૦ માં ધ્રાઅ નો લાપ
લે પાઆવે છે૦ તે ફળ અત
પરકંત એ દોપાના છે૦ એ દો
પાપડી જેઆવે છે૦ એ દોવા
ના ફળ અતપરકતથાઃ
મંદરમા સહર જે આવે છે૦
એ દોપાના ફળ અતપરકતથાઃ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

લખ્યા ને પોતા પાસે: તાવીજ
કરી ને. ને ગાંઠડી બાંધ્યા: ગાંરા
ખે: તો ખોદાતાલાએ ખારજા
પ છે: તેને ઘોર ના. અજાબ
દુઃખ કાંઈ થાસે નહિ: તેજ
વડો જ ફે પરૂ નાઓ નહિ: બક
ને કોઈ સોર તરાબી ને આ
પદાસે: તેને આકબતે ઘણી બે
રખાં ની કરી ને: પોતાના પર
રજંન ના પઢેરાબ્યાઓ: તેપ
ડી જખ રાઈ લખે છે: ખહે

[illegible]

પાતખાનેઃ ઉમરાઉપરે ગ
ક્રાછેઃ તો છે હોવાની ખબર કરે
સઃ ઓર આવીને આગળે ઉ
ઓરે હેઃ કહા મને દુઆ મંગને
હાથિ આવાહો છેઃ તારે છે હો
વાપડે તોઃ તે ને આ હે ખ છોડા
વેર હીઃ છે જખો દાતા લાછે
ખર વા પૂછેઃ તે ખબર નાંહ
માળ ને પખ તેઃ છે હો વાદંન
વાપરતે· વારતઃ ઝાપડે તથા
આંભયોઃ તે ઉપરત આખ્યાઃ॥

ए कुआ ला वात ना पडे तमां

आं मजो: तो मला ए कुआ तन

कार: तओ पंडा ना रखा कु

रण: आपाने ए मारे है: तेम

ला ए कुना परा छे ल कोहे छे:

आपहो म हं मह मोआ तपाछु नै

को छे तं मारी ए मत मापा: का

पेतां हां अधी ए हो पाह रोन

परःथा: पडे तमा आं ना पोहु

लोप्यां हा ता ला ए मआ तमा

हेहु ए कुह कार ओ र: तेने पाग

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ई ज पु हि छे : ओहो मा नि म द
मोअत पताः जे पो ईतं मारीठ
मत मा हि पाः हि पु हि जाल नार
जपु ना दओ दः आ हि पने ना
पे. हि रो ज आ पओ: पछे पो तेर
ज प पु र ओः आं ने दो वा पा ज
नाः हि रो ज पारः १ ॥ पडओ तपा
आंम पओः तो रोज करां मतने
दाडेः तेने मोठा पूनम नां मे
दर मेंअर प्याजा जपु तां हिओः
ठेपान र म पा ओ आपु पाजो

प्रओं: ते न प्यो हा ता ला तेप्म
पा पृछे: तें पे हे त न प्यरा इल
फे हे छे: ज्य हो पा हं पद पोआ
त प्का: ने फो इ तं पां री ७ पत
पा हे पा: ते हो पा ह रो न पार
ग पा हं नं ते फ प र तें: प डे त
पाआ पा फें: ते पा हं नः पा
अ दी: प्या न नां प पां ये त पा
आं न पे: पा रः र तो आ ह प्य
हं ना ज्या पां हे: त पं हा ने पो
ता नो: प्य रा प्य पा फ ल ओं:
ता रे आ हे प्य पा ओे: पे गा प्यर

पोरा हता:• तेओ आ हाता
तोने पूछ छे: अहो पाखप
रपर हागार:• तेणे पं हे हेना
आमां हे: के ता कुमां ईश्की
छे: जे तं जो पोतानो प्योराम
जो के तो छे: तारे प्यो हाता
तो तेकर मां पूछे: जो तेणे
तो हं नी आमा हे: हो पापा
जनी पाप ज नां म: करो जया
राशीआ: पडा छे: ते पा हं न
ाशीआ अधी पां आ तधा मोता
पा छे: ते ज कर पं हगी पा

अते॰ अंने पोताना प्यो राम
मोकु लोछे॰ ते प हीन पमराईन
के छे॰ अ हो नहं नद नो अत
पमा॰ ने कोई तंमारी उ मेत मां
हेपा: ए हो पा पडी ने हु गारउ
परे पम् कु नाम ओ॰ तो हु गार
पेरपेर दहु ने॰ ए हो पा पडी
ने: पां डुत उ पर पम् कु नामे॰
तो पां डुत पाछ पारे॰ अं ने मा
रग हे ओ॰ ए हो पा पडे तपाओं
न पो: तोमां हा ताल मे हे रपां
ना॰ उ पर आ पा ने: तें पां हा

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

हाकु लाछे ला हा:ई लं ला हे

हो:: मह मदररऋ लं ला हे॰॰

१

हो पा पे ला पाआन प ने पा

आनं मा ड पा ना छे॰ माजाउ

परे: पापप गृ कुापा॰ पे ला

हो पा मारे मं छ पा धन ना॰

ते पछा पाअ मा हि नर मकु

ने: हो पा पां अ मा पा प ना मं

हो: फर मां न जा:: पं अ म ला

हर रे मां न नं ररही मः

आत गो र पा नपं रं मां॰ आद

ईमाम सा हां: आदपासान
पनरेत नां: नर आलो मह
मद सां हां: सतगोर पीर सु
पार दीन: सतगोर पीर सो
दर दीन: सतगोर पीर सा हे
पप दीन: सतगोर पीर नसार
दीन: सतगो पीर सं मं स दीन:
सतगो पीर सलासों दीन:
नर आ सा लां म सा हां: नर
आलो नरं नं ना ना म: नपत
नर सतगोर तं मांरी दो पा॰
स पां मातं मे आ दरपा:

पछे अलख: मत्र गो
मातंमे ऐकु: अफ़कार
नरंजं नान रां कार: उपना
पंनते आआ कार: नरंजं
नेतो: रेहे मत कुरी: मतसा
नेउ पंना हरी: हरी ऐतां छत्रं
अपतार: मत्रपे हे कीहा
पअता र: तंमे नरंज नानरा
कार: मत्र वागा मां हुओ
अपतार: आहामछ: रामा
हांकोरं नः आहा वारा: आह

पनी नर सांई ः अवतार॰

सो पन करोड कुंजा पर वार॰ सा

हा पांमन ः आ हा पर अरांम ः

आ हा पना रांम अवतार ः छ तो

अ करोड कुंजा पर वार॰ आ हा

फरसंन ः सा हा पना पहेद अव

तार ः छ पंन करोड कुंजा पर वा

र॰ सा हा गोर तणा अता ः आ

हा गना न कुंजा की द्रुअ मा अव

तार॰ सो त्रसे अतर होओ ना को

जा पर वार॰ न पनी नर अत

गोरः नर अ स लो प आः अ
तगोर स लो ओ दीनः अतगो
रअं पस दीनः अतगो नआर
दीनः अतगोर आ हे पप दीनः
अतगोरस दर दीनः अतगोर
फपार दीनः अतगोर ई पां प
सा हाः नर अ लो प हं प द आ
हाः नरं ज ना न फ लं फी नारां
पाः तं मा री न ई अ तेः तं मा
री द स तरेः प प न र पे आर
पं दा ओः नर नारी पाप

गो पा ल नो: पा ल पवनी आ
कप्प लकरो: नाआं ना गेहे
पांना नारे जो क प्प लकरो:
पां अ तं नापा कु: रु हां पां कु: अ
रु हां पा कु: न प तं न आ कु: हे
पआआआ अ तं जां री: पं हगा
हं मा री: तं मे कप्प लकरो:
तं मा रे जा वओ जा वे: कप्प
लकरो: अं नं: पां ठा नापार:
पां न पु ल ना ज गतार: तं मे
हाता: ते मे जोग ता फरमे:

धरमतं माहृः मा व मगती:
ई मानअ माहृः अ वां माण
तंमे कु वृ लकुरोग्‍ आल कु
लजोगमां हे हर आ लोः अ
पर वे हणे आ आरे मा लोः
अहांनरं जनांनकु लं कुःना
राणः मप्ता मआ पारनाः हे
पा आ आ रः पार मांनः पा
ता ओ कुवृ ल कुरोः आत
गोर ई मामआ हाः नरआ ला
मा हा म हआ हाः हकुला ले लं लाहे:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

आत गोर पर आ ला ओ दीन:
नर अ आ लां म आ हा: नर
अ ली नरं जन नां म: न पा
नर आ त गो तं मा री दो प:
नं रं जं न ते न रा का र: ६५
प फी को घो प आ ता: के ई परे
के कू इ र आ जा ऐ कुं म: आ पो
आ पे पे दां फर मां न: नां ले
पे दू ने त र पा जा: ७ प नां पं
र मा आ कू का र: आ नं द पं रं
मा आ आं म लं ग: हरी हा पि
आपि आ क लं ग: प र म आ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

ना सां भा नारे नो कुष्ट लकुरों॰
तं मारा अर वार पर (वार) आपे कुष्ट
लकुरों॰ तं मारू प्यां कु नाकाना
कुष्ट लकुरों॰ तं मारे कुरमे॰ तं
मारे घरमे कुष्ट लकुरों॰ पंदा
नो ना प॰ अना व कुष्ट लकु
रों॰ तं मारी आकना वाकनां
कुष्ट लकुरों॰ दोअता तं मारी
कुष्ट लकुरों॰ अतगोरई मा
मकां हां॰ नर अ लो माहं मदअ
हां॰ ह क लाए लो है॰ ई लं लाहों॰
माहा मदररअ लं लां हे॰

होपा त्रीजा माहेअरनेःपा
पानं माडयाना छे॰ पारमं
नना:।) पोअमना हररेहेमा
ननररही नःसतगोरपार
पारमाःअहरई मामआहे॰
आद पाअनपनरंनं नांइन
रअला मंहमहआः॰ सतगोर
पारकुपारदी नः॰ सतगोर
पारओ हरदी नःसतगोरपार
साहेपदी नःसतगोरपार
नआरही नःसतगोरपारअं
मसदीनःसतगोरपार ॥

अ ला ओ दीनः नर अ आ ला
मआ हाः नर अ लान रंनं
नांमः नपा नरसत गोरतं
मारी दो पाः अं कू फरे आ द
नरं नं नोः दरी आं हेतः पे
आं नापा ला धां ओ तः लई ने
धान दरी र हांः लपम दर
नांः दंदो फार प ही ग हांः फ
र म दे धा न दरी र हाः छ ला
अ नो ग
अ मोराआ॰ मो फउ पहीग
आंः त दाप स त पा ना रःनां
र पा पी रः पार पा पी फाः

2010 Before -Satpanth Manuscript 24 (174)

फल पा पाइ इ जा॰ इ जा पा श्री धा
पर फाआ॰ म ढर उछणने॰
छर ती आ फाआ॰ नर पाआर
नाआरपे ज पने जं त॰ आर
आ॰ फोर आ ने॰ फर आतआ त॰
तं मे न रं जन आं मर हे प॰ मई
ऐ पाअनप॰ नां ने पर मा॰ मा
पो आआ तने इ धा फरी॰ आंग
पा आर धंग नां आ प टरी॰ ७
प ना मा फुत ने॰ मा आ पर प
नी॰ मा आा माहि द रो आं ता फ॰
तारे ना पं ना म ७ दे लो फ॰

मसातगा मोइपना माइपा

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ईमाम हओ नः होओ नाः ई
मा म ओं न अ लाप्य ही नः ईमां
मः म हं म द प्या फ रः ईमाम ना
फ र आ द फः ईमाम अअ माई
लः ई मों र सत गो रः ओ ह
अअ मां ई लः सा हा नाः ओ द
न रमा हाम दः स हगो स ला
ओ ही नः सत गोर सं मअ ही
नः सत गो नआ र ही: सत गो
रः सा हेप्प ही नः सं गार सो
दर ही नः सत गोर फ प्यार ही
नः सत गोर ई माम आ हाः

नर अ ला नं हं न ह ना हा०
नरी अं नं न फ न फ ना रांखड
तंमारी नई अ ते० तंमारीद
मा तरे० मन नरखेअरे० नद्दा
ओ० नर नारी पा ल गा पाल
ना पा का प ती का० क प्पु लकु
रो० तंमारे ना पे० ई मां ने कप्पु
लकरो० तंमारे अरपार० परवा
रम: कप्पु लकरो० को ल परपा
रें० आ त पर सता० अं मे त प्पु
प्पु लकरो० तंमारा पारा ना दो
अ ता क प्पु ल करो० तंमारुप्पं
पड ना आ ना क प्पु ल करो० ग

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ऐ लोकः ए लेला होः महेम
हरर सु लेलाँ हेः ॥ ५ ॥
हो पा मो पाआक तामे पापनंमा
उपा जो छेः फार माननः पोआ
मला हररे हे मांन नररही मः
सतगोर पा हपे र मांः खदर
ईमा मआ हाः आ हपा आनव
नरंजनः नर आला महेमह
साहाः सत गोर पार कपार
हानः सतगोर पार कोहरहीनः
सतगो पार साहे पहीनः स
त गोर पीर नआ रहीनः ॥

अ गोर पीर अ म अ हीनः अत
गोर पीरआ। लो ओ हीनः न
र अ अ लोजसा हाः न र आ
लो नरंन नां मंः नया न
र अत गोरतं मार हो पाःप
र पंज आ ह नरंन नां धं धो
फारः सं नहेफ फी धो पअत
रः आपे ७ प नाई ५ आकारः
ई म आकारें मा हे ध र आ
धुडारः
फोरः लो पा अं धी अंनंत
अपारः फरी फरोरें ह ७ मे
आसः नरंन नापि आपरे

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

त नो आ ला: न प्या न हं न द:ना

तं मे अ पं ना जू र नो न हा र:र

प्ये अ र पं दां नो फ रो न अ ता र:

आ ठ ला प्य फ रं फु ना: अं नंत

फ रो डा दे प: म ल र फ ल पू ना:

न पां फु फ रो डी नां प्या: छ पं न

फ र ड मे घा: प्य ता अ फ रो ड:

फे न र: ते ता अ फ रो ड दे प ना

पू री आ प्य: र प्ये अ र पं दा

नो फ रो पां फु: र प्य मा गा त: १

अं म री प्य:रा द दू नि:आ पर

ला ल:ना फु नि द ल:पा पुं न

लाप ती: पु॥ क री अे ह: ७॥ ओ
हे हे प: ८॥ के ने सर भ: रा॥ कुं
प भा कु अर: १०॥ न प नाथ:
मोरा भा रो ह: अगं भा भो भात
रभा: ते ह आं भात पं थ नो पुरा:
ने छो रा ही अपर वेद नी पां छा:
सफल था आं ने गपुरा: ने छै रे
रफी छो नो ग ह न ता भ ती सा र:
पर ना: तारा नं नो पठी: मं हरा
पंता: हरु पती: भैनारां छा: ने
छां आं भात पं थ ना पुरा: ने छो रा
ही अपर वेद नी पां छी:

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

अ ह न र स हं स ह: न र अ अ लां
स आ हां: अ त गो र अ ला ओ दी न:
अ गो र अ स स दी न: अ त गोर
न अ र दी न: अ त गो र अ हे प
दी न: अ त गो र सो हर दी नं:
अ त गो र फ प्या र दी न: अ त गो
र ई या स आ ह: न र अ ला या ह
स ह आ हा: न रं ल नां: न फ स
फ: नां रां ए. तं या री न ई अ
ते: तं या री ह अ त रे. स स न
र प्ये अ र पं हा ओ: न र नां री:
प्यां ल गो पा ल.नी पा प प

ती आ पुष्प ल पुरो: तं मा
रे मा व आे वे: पुष्प ल पुरो:
तं मारु ष्पां एक नी आं नी पुष्प ल
पुरो: श्रे हे मां नी. नारे नी पुष्प ल
पुरो: तं मारे पुर मे: तं मारे दुर
मे पुष्प ल पुरो: नरी नं न तं मा
री होस ती: गोर नोर नी होस ती:
तं मारा पर पार नी होस ती:॥
मा! हे व आ। हं. मे अव ता!र नी होस ती.
तं मारु ष्पा एक नी सानी पुष्प ल
पुरो: तं मारा पारा नी होस ती:
गोर नोर ना जप नी होस ती:॥
मां एक नी आं नी पुष्प ल पुरो:॥॥

तंमारा पारा ना होअ ती: गो
र नोर ना ना प ना होअ ती: पा
ड ना आ नी आ ना कप्प लकु
रो: पप्प त पे मां: ना पारा न
परत मां ना: अपर पे ह ना गा
ठा हन ना होअ ती: नी आ ना
कप्प ल क रो: कप्प लकुरा
पो: हक साहा अ ला: नरें
ना मा: नपा म हं म ह क रो ना
प नां का मा: अ कत पा पा पा
त मा: तं मं ने पर ला: म: त मा
री अं गा: ओ पा त नी हो अ ती:

नीआनी कुप्प लकुरो: कुप्प
लकुरा पो: तं मारा करनी
होअता: तं मारानी मनी होअ
ता: तं मारं पुल मा फुंडीनी
होअ ता: नीआंनी कुप्प लकु
रो: कुप्प लकुरा पो: आहा अ
ला पं फों म: परनी ओरगां म:
नी प्प ही पे कुआ र फों पे त
मा: आं हर ईमा मना हे की घा
टां म: तेडम नी आ सत लनी
होअ ता: नीआनी कुप्प लकु
रो: कुप्प लकुरा पो: सा ऽ

[illegible]

फुरांबो: आहातं मारांफु
हां·फुरा वाना होअ ता·आहि
पातं मारा आं हहा: रां हि पातं
मारा ला पा: आहि पा तं मेअ
र ना: तं मारा रा र ना वां ना हो
रा ता: ना आं ना पा ह्ह·फुप्प
ल फुरो: फुप्प ल फुरा पो: पार
मा· पाअ न प·ना हओ आप
तार ना होअ ता: नाआ ना मे
हि मां ना: फुप्प लफु रो: फुप्प ल
फुरां पो: आहि पा तं मे पा फु:॥

[illegible]

पदे पावच गकु नं दीपा

मंगणाः दृश्य दः पईक्षा दृमडी

होपु डलः कोडी वां हांमे ॥

फारमां नमः पोक्षा मलो हर

रेहे मांन नरहरि मः आतगो

रपालु पांरमां: आदरईमां

मआहां आ दपीआ नपःन

रंननाः नदआ लो महि मदआ

रहां: आत गोरपीर पुपार

हीनं: आतगो पीरआ दरहीन

आतगोरपीरआ हे पाहीन:

अत गोर पार नआरहीन०
अ त गोर पार अंग अ हीन० अ
त गोर पार अ ला ओ हीन०
नर अ अं लां ग आ फा० नर
अ लो· नरं ज ना नां ग:न
पा नर अ त गोर तं पार हो
पा०० ही पां न पा हआ फाजे:
फो कौ ना पा कृ·ज पू ना ओ
धार०ओआर नाकृ री नंन
फार: नां फ ही पे दरो अप
तार० तं पे अप पा अ प:त मा
रा पा या अ पा अ प० त

मारू आवे पुं आया अ भ॰तं
पेषां नफ मा द्व पुत॰तं षेर अ
मांरं मा॰ अ६ र नं पं न तं पु॰
तं मारे मारू॰ तं मारी न हिस्पते॰
तं मारी रुअ तरे॰ तं मारी ररां
ऐ॰ तं मारे री प्यां ने॰ ने कोई
भ मन पां हो॰ हा पो प्या पो॰ बे के
ई प्या ई प्याप डी॰ मं नं नी मोरा
रुआ छाऐ॰ तं मारां नं डारे मा
हि॰ मा पकुरी ने॰ तं मारे जंजों
रप्यां ने॰ बे फ ई॰ पांहे मारू

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

१२८॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ध ना उ तांरां ना छे:॥ सांभळ उ
पा ठ ग त मां उ सो तो पां पडे
फर मांन ज्ञा: पे सन ल ला हर
रोहे मांन न नरे र हि सः सत गोर
पा व पा रं सां: सा द र ई सा सखा
हा: सा द पा सन प न रे ले ना:
नर सा ला महि म द सा हा: सत
गोर पार कृपा र दी न: सत गो
पार सो द र दी न: सत गोर पा
र सा हे पा दी न: सत गोर पा
र न सा र दी न: सत गोर पा
र सां मस दी न: सत गोर पार

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

छपंन करोडी जा पः जेघा
आपे अंमरपेआः जे गो प
रमांपासन प. नापरवार
पुजाः जे जो नरपे हने पाके
फे आसाः अमत पं पने ओ
घारेः तेज प अंमरपेआः
गरेलतीजा अरज लाकलफ
गाहेः पतीअ करोडी जा पः
फेनर आपे अंमरपेआः
जे गो पपर ना पाअ नप. ना
परवार पुजाः जे आपने
हने पाके फे ना लाः अअ

तपंपने ओधारे: तेजुप
अंपरप आ: ॥३॥ मोधाम
जोफा कुल फनां: मोगफीधा
मार: ते मां पा अन. प: नारंपो:
धरं इअे अ पतार: पे जाकुर
तामो गमाहे: पां म करे डाजु
पआपे: रामापरमान. अंप
रप आ: मे डो पर मा. पाजन
प. नां परपार पफमा: रधपे
इनेपाए फे. मा जा: आमतपं
पने ओधारे: तेम पअंपर
प आ: ॥ मामा ते ताजग

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ऐ परतीत जपाने मां रो छे ः ऐ
जापने पावंन करो ः तंमे
पावंन करावा जोग छो ः हुं अ
न आतपपि ने आधारे ः अ
परपेटने पाऐ छे ः ऐ जप
ने पावंन करो ः अनें अ
तहाअे ना ः कोल पाऐमना
परवारह ने परतापे करो ः
ऐ जपनां धंना पप गऊ ः
जांपर दीपे करआर फांषे
तुं ः नं आमतपो करीने ः

એજપનાધંનાપગાઓ:
તાંહાંજેનરીજનપેઠાહોએ:
તેનેપરતપેકરી:એજપના
ધનાપગાઓ:અઉદલો
કમાંહે:જેકોઈદેપતાહોએ:
તેનેપરતાપેકરી:એજપના
ધનાપગાઓ:આહેપતંજેઆ
મા:તંમારોઅતંપંથઓમો:
જેકોઈતમારાઅતંપંથમાં:
દેપતાહોએતેપણઆમા:
જેહોંપ્રાણકુલજોગમાહ્ય:
પ્યારકરોડાનેઅતંપંથદેપ્યા।ડા:

तेअत मोर सो१ र ही नआ
आ: तं पारे अते तं पार१ते फुरा
ने: हे जा प ना धं ना पा गआे:
जे फो ई घ ने गार जा प: तं पा
रे आ गआं ण आ पो: ते जा प
ना धं ना पा फुओ: ज गो ज गे
गोरग त ना धं ण तं पे घो: म
रे पा ण ना फे श७ तारे: मो
रा आ अ प तार नां धृ प ने पा
रो: जां प्फ ही प मां आ आफ
रो: अं म रा प र मा वा अ प
रो: म ला ज गा प ता र

गता॰ ७ पुत आ मारी: अर
वेळा पतं मारी: कुमारांरी
ओ: त की अफरोडा नो मेमो
आपो॰ अंन त फुरडीना ओ
पत मां रां पो॰ मे हिर अं मा
हांन: परपिं मापर इप हुआ॰
पअपराओ ळंन फुप ४१कु
रो॰ अआत पंथ ने अधारे॰
अपर वेद ने पा एं फे॰ ळंन
रंळंन आप हीप मा होए॰
ते ने परता पे फुरी॰ न फुअं
ाने परता ांफुरी॰

ऊँ जा प ना घं ना पप कु ओं॰

तेप्पं हुं ज गा ज गे ना घं ने ग्रा

रुछं॰ फर गरां फ्रां न धरों॰ अं

मरा आर फरों॰ फ्रां धा । घं ना

पप कुओं॰ प्पा ना घं ना नंकु

रा पओं॰ तं मारी कुपा मारा

प्पों॰ तं मारा न ज र तप्पेरा

प्पों॰ तं मा रा घ क त प्पे रा प्पों॰

अ ती उ न ओं पप त आ पों॰

अ ती ज ती अं तों फ्रो नां प्पे पा

मां रा प्पों॰ अं मे प्पं दा घ ने

गार: हा पां न पाइआजो:
तंपे घं ना पकुंसा हा र:
सत गोर ई पा पआ हा: नर अ
ला प हि प ह आ हा: हि कला
ऐ ला हि: ई लं ला हो: प हि प
हरर प लं ला हि: ॥ ५ ॥ ::

(१)

हो पाजो प नें घं ना उतर पा
ना ल प्याछे: फार पां नजो:
प्येम प ला हरर हे हि पां ननर
हि प: सतगोर पा प्यार पां:

[illegible]

વાઃ ગોર વાં આ. નોર વા આઃ
અપઅ ફતી વા આઃ આ દીઠના
ર. જગો જગ નો. ઉજ પ. ઝુલો
ઝુફો આ વો છે. ઉ જા ઉલો પ્ર
ઉ લો અ રજ લા. ઉ વાર ઉફ
લફઃ ને ઓપા પ લો પ. ફલ
ફ નાં. આર નો ગ પ આ છે. પે
લ ફરતા જ ગ ના ફ લો જ પ
તે તેતા જોગ મા આ વા મ ફાં છેઃ
પ્યા જા રતા જ ગ ના ઝુ લા ફ વ
તે છે વા વર મા આ વા મ ફાં છેઃ
તાજા છે વા પે ના ઝ લા લ પઃ

ते आ ल न फ ल न ग। म। आ प
म मां छे: ते अत गोर प्य र मां
ने: पर ता पे फ री ने: ऐ ज व ग
त मां आ पा म को छे: ऐ ज प
आ द उ ना द नो छे: क प ऐ ज
प नां: पात फ उ ता रो: अ त फ
टा को: ऐ ज वे प्यो दु मा द हो
ऐ ते मां प फ रो: ऐ ज वे मो
र हे र: क रां म ला धु हो ऐ ते मां
प फ रो: ऐ ज पे गो र क फ: फ
णा प्या धो हो ऐ ते मां प फ रो:
ऐ ज पे ही न ढं ना आं मा हे:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

त पे करी ने पाप करो॰ ख पं नं
करो डीअः पे खाने त पे करी ने
पाप करो॰ प नीअ करो डीअः
पे नरने त पे करी ने पाप करो॰
पां अ करो डीअः परला नने त
पे करी ने पाप करो॰ आत क
रो डीअः हरी अं इने त पे करी
ने पाप करो॰ नपकर डीअः॰
नने भार पने त पे करी ने पा
प करो॰ आन कुन नगपा॰
पार करो डी नागोरः पीरओ
दर दीनं ने त पे करी ने पाप

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

हकला ए ला ह: ई लं लां हां ॥

पहं प हरर अ लं ला हां ॥

॥ का॥

हो पाजा पने घ ना ७ तार पा

ना लाप्पा हे० फार पाओ: प्ये अ

प ला हर रै है पां न न र र ही प०

अ त गोर पा न प्पर पा: अ हर ई

पा प आ हा० प्पा द पा आ न प०

न रं ज नां० न र अ आ लां प आ हा०

अ त गोर पार कु प्पार दा न० अ

त गोर पार ओ हर दी न: अ ता

ગોર પારઆ હિપદીનઃ આતગો
રપારઃનઆરદીનઃ આત ગોરપા
રઅંશઆ દીનઃ આતગોરપારઅ
લાઓ દીનઃ નરઅલા નરંજનાં
નાશઃ નપાનુરઆત ગોરતંશા
રદો પાઃ આહાઅંલાઃ આહાઓ
દાઆહાઓલાફુઃ આહાઅપતા
રઃ આહાપારુઃ આહાદીનાંઃ આહા
દંનાઆંઃ આહાશારાંઃ આહાપે
રપાંનઃ આહારાંશઃ આહારેશા
નઃ આહાઈશાંશઃ આહાઅંદ
રઃશહાંશદઆહાઃ આહાશાઆતપા

आहा सरत नाम लो० आहाह
पआ ईलं लो० आहा नां सतपे
लो: आहा नां सत पखी ल० आ
हाअ तर० आहा गो फार० आहा
पा कुपर पर है गार० आहा प्या
लेफ० आहा प्पे लो० आहा आस
छ० आहा आ फोरं स० आहा आ
पार० आहा आ नर आं ही० आ
हा आ पांस न० आहा आ कर
अरास० आहा आरास० आह
आ फेरअं न० आहा आ पद ध०
आहा आ न फपा फी हअ सा

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ગત ગંગાના: પીર શા દરવે
રપેઆર ધંને ગાર જપના: આપાં
ના તંપે આપલ: તંપે આપર૩
તંપે હીમદ નાનાં દઆ કા: તંના
રાગદ ણનો પારને કી: આંનાર
આપગડ ણનો છેકે નં કી: તંના
રનાં ન૯પરે પાલા કારનાં ઉ:
તંપે આંનારોર દેન કોલાપઆો:
પરી આનાં ન ફા પઆો: પપ
કીપે ડાના ઉગાર નો: તંમને ના
દાંન છે: તંપંને રોઆંન છે: તંપે

[illegible]

मां दी दी॰ आ नफुम नो जमां

हे:तं पां आ तंपे पा हो॰ पानती

न पा नुरआत गोर नी॰ पानती

आत गोर आ लाओ दी ननी॰ पानती

आत गोर आंमआ दी ननी: पानती

आत गोर नआर दीन नी॰ पानती

आत गोर आहे पा दीननी॰ पानती

आत गोर ओ दर दीन नी: पानती

आत गोर फुपार दी ननी॰ पानती

आत गोर ईमानआह नी॰ पानती

नर आला महेम दआ हानी: आ

आ दनरंग ना तंपे ज पने

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥८॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

आ हां॰ सत गोर पीर कुपार दीन॰
सत गोर पीर सोदर दीन॰ सत गो
र पीर सामप दी नं॰ सत गोर पीर
नसा दीन॰ सत गोर पीर संसम
दीन॰ सत गोर पीर सजाम्पो दी
न॰ नर सं सालाम सा हां॰ न
र सा लो नरं ज नां नां जःन पीन
र सत गोर त मारी हो पां॰ जो हेर
पांन॰ पां द सा हांजे हेर करो॰
फा ज ले करो॰ फार स त करो॰
र हे मना न ज र द रो॰ कु डी प
लाद फा करो॰ म लतां नी दास

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

અ પાં ખા તં નો તં ખે ગુરો નઅતા
રહુ કે કોઈ ખાંઃ નોઃ તે નેઅરગાપરી॰
તેનં ખા નો॰ તંને નરગાપરી॰
પાંરગોર હરીમં અંદ નેહ્‍યાએ॰
તેજ પઅંગરાપરજાએ॰ અડ
અઠ તીરથ નાંપાપાલાંતે॰
ત્યર લેલાએ તે॰ નો પારકાખ॰
તં ખા ખો લાંના॰ ને પુન જર ઘરો॰
ફુઆ આંનાફઆરખો॰ એજ
પનાંફી ઘાઘં નાપંફઓ॰ પા
ગઘં જા નફરાપ ઓ॰ પાંગ
આતન પપ્યાર॰ તે શીઅફર ડી॰

ना ने जा ज्या लोः लखम ओरा
आ ना फे रारा जोःअं गआ नं
जतअ हेहार ज्या लोः ज्यजरां
पर जा पा आ घरोः अपां जा
ऐ कां त फ रोः हो हां त ह्र र फ रोः
रप्पे अ र ने राज ज्या पोः अ टि
उ ना ओ प त जारा प्योः घर
फ जा पा पोः रेहि जनीन नर
घ रोः प डां पमते पर गांर फरोः
सर उ परेह त घरोः नरनप्पा
जहिं जहआ हा ना फन्ना ऐ
तंजे परगट र प फ रोः ऐआ

realpatidar.com

પાન ॥ ૨૫ ॥ પાન

દો પાંચ પને ધંન્ય છે તારે વાની
લખ્યા છે ૭)) પારગા ગ ગઃ પોઆ
ગગાહરરે હે ગા નનરરહી ગઃ
આત ગોર પાવ પારં ગાઃ આ દર
ઈગંગઆ હાઃ આ દપા આનપઃ
નરંનં નઃ નર આ લાગ હંગ દઆ
હાઃ આત ગોર પાર પ્યારી દીનઃ
આત ગોર પાર ઓ દર દીનઃ આત
ગોર પાર આહે પપ દીનઃ આત ગો
ર પીર નઆર દીનઃ આત ગોરે
પાર અંગ આ દીનઃ આત ગોર પાર

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

होवासाहाजीवांमनरूपनीहो
वाःसाहाजीफरसरांमरूपनी
होवाःसाहाजीरांमरूपनीहोवा॥
साहाजीक्रस्नरूपनीहोवाः॥
साहाजीबुद्धरूपनीहोवाःसा
हाजीनकलंकीरूपनीहोवाःसा
हाजीचारेजुगनीहोवाः॥
धरतीआकासनीहोवाःपवन
पांणीनीहोवाःअसटकुला
परबतनीहोवाःनवकुलनाग
नीहोवाःअढारभारवनीहोवाः
सातसमुद्रसातपाणीनीहोवाः

मारपे द· मारफतपमनी होवा:
मांहा अरबनी होवा: नपलाप
तारांनी होवा: ददमकपना
होवा: आतश्रांहेरनी होवा:
नपअंन पांणी नहीनी होवा:
आतफरअतानी होवा: अंन
तफरीकरणा देवनी होवा:
नपनाथ· ओरामांअंधनी होवा:
अंबा आओम त·रपाउनी होवा:
अंक लाप एकी हजार: पार
पेगाम्बरनी होवा: नपांड
करोडी बांधानी होवा: पा

छपंन करोड़ जे घा ना होया॰
पा तीस करोड केनर ना होया॰
पांच करोड अपर ताण ना होया॰
सात करोड अहरी चंद ना होया॰
नव करोड अजेसटना हो
या॰ बार करोड अ कुंवर पांडु
अर ना होया॰ सस्ता अस्ताप्र
रना होया॰ पोलर पेअर गत
गंगा ना होया॰ वंस लोवंस
त ना होया॰ नवा नर अत गो
र नर अस लांस मां हा ना हो
या॰ चउ अउतीर य ना होया॰

[illegible]

[illegible]

हि फ ला छे ला हि: ई लं ला हिा:
प हि म ह र र अ लं ला हि: ॥ । ॥
आ ॥ १० ॥ आ
दो पा क प ने घं ना घो डा पा नी ल...
फा र मा न क ग्गा पें अ न ला हि रे
हि मां न न र र हि म: अ त गो पा त्र
र मा: अ ह र ई मा म मा हि: आ ह
पां न प न रं ज ना न र अ ला
म हि म ह अ हि: अ त गो र पा र
फ पा र ही म: अ त गो ा र अं
ह र ही न: अं त गो र पा र आ हि
पा ही न: अ त गो र पा र न आ

रहीनः अत गोर पा रआं गआहेनः
अत गोर पा रआ लोओ हीनः न
रआआ ला गआ हेः नर आला
नरंन नां नां गःन पा नरअत
गोर तं गारी हो पाः आ हा आ ला
गआ ले फे गः नपा आ ले फां गा
अ लां गः पे गो ला लाः पन ल फरोः
पेह ल करोः आं ला हफ तं गेः आ
ला पाक तं गेः अ ला हीन तं गेः
आ ला हूं ना तं गेः अ ला पहा तं गेः
आला पा लक तं गेः अ ला अं हर
तं गेः आं ला ई गाग तं गेः ॥ ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ईआ आहा पुरांने पारछ तारो॰
हाँअ ता मा हा म दरअ ल ला॰ हो
अ त प्पा प्पा प्रात मा ला॰ हाँअ
ता आ हा मोरत ला अ ल ला॰
हाँअ ता ई मां म हाअं लं॰ हाअे
न ला॰ हाँअ ता प्पडां प्प लरप
ला॰ हाँअ ता न प्पा लरअ तगो
रला॰ हाँअ ता लर अ अ लाम
आहा ला॰ हाँअ ता अ तगोरअ
लाओ दीन ला॰ हाँअ ता पा
रअं म आहा न ला॰ हाँअ ता
पारनआ रदीन ला॰ हाँअ

तीपार आते पान ना: होअ तीपा
रओ हर ही न ना: होअ तीपार
पार ही न ना: होअत अ तगोर ही
पांस आहा ना: होअ ती नर अ
ला सत स हआ हा ना: होअ ती
अे तओअ त होअे नी ना: होअती
कोते काहेस ना परपार ना:
होअ तीहे क लाप ने: हेआ हार
र: पार पेगां पार ना: होअ तीआ
तपार अतां ना: होअ ती न प ना
पओरां आ अंध ना: होअती ओ
हाआ ओअत र पा उ ना: ।।।

हांअतीआतआंहेरना: होअ

तीनपओनपांछ नहीठना:

होअतीमंहांअर नना: होअ

तीनपलाखताराना: होअती

कना

अ सरपरखातना: होअती

नपकपानागना: होअती आ

रकपाणेहाना: होअती खणा

रखारपंनअपतीना: होपा

नाहोअतीएकरीने: एनप

नघेनाभापकरो: नगोन

गनाकरपांअंधणछोडा

पो: मोराआअपतारना:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

गषा मुआ पार नाः हे अता
फां ल र षं आर॰ गत गंगा ना॰
हे आ ता नें पालां नें पात ना॰ हे
आ ता पार आह्म नाना पना॰ हे
आ ता ऐ कु रा ऐ ज प ना घं नाप
रमो॰ लप्प मो रा मो नां फेरा
रा फो॰ हे आ ता को लरा हि दर
गा नाः हे आ ता पार प कु ल
ना॰ हे आ ता मो आप लाप
हे पा ७ ना॰ हे अता ज्ञ गना॰
ते ज ना॰ हे अता आं न हेप नाः
हे आ ता नता आती आं तांकी

जपना॰ होअती भार थाप्यु
भार पापनाः होअती भार पे
दंभार कतेपनी॰ होअतीआ
तपारनेअ तापीअनपे वनी॰
होअती पंनरतेपने॰ प्यारक
रणनी॰ होअती नपछे तेपंनो
तीनी॰ होअती अ ऽअ ठ तीरपनी॰
होअती दअ दआंउनी॰ होअती
हीरणप्याइन जपनी॰ होअ
ती लप्प मोरा आ जपानोप
नीऽअ पा गाज टे जपना

पा प दूर करो॰ छे पंदा ने वही
को ठ मा पाक आपो॰ छे पंदा न
फ म आ पप न छे॰ पंद दा डा
रपी॰ प्यो दा र पा छे॰ पंदा पट
रपी॰ लोला र पी छे॰ पंदा अपा
रपा॰ ल पा र पा छे॰ पंदा अत
री फा॰ दल पा फा छे॰ पंदा लाई
रुत फ मरा छे॰ पंदा मोना
जुठा॰ द ल ना प्यो र छे॰ मोर पं
न पा द आ मे तेर करो॰ आंदा
वे आन पां ... करो॰ पांडप नो
पर गा र फ रो॰ न फ ई आवा

सत पंथ हे ष्याडे: तंजो अे कु
तर ओपरी आताहरा: ते पां हा
करणा कुल कपाले: वगोव
गेगने गरहे: राते रातना
हाडे हाडाना: ते पां हा थ ने गो
रहे: पंन संत नाथ ना: अपं
प्पे हा राम थनाः प्राने आं
पक्षां ना थं नाः पंनं घपु रां
पन घंनाः तं ने कोहरघोः कु
रंप कुरेः प्री हाथ ना प्यगओः
प्पा गाथ ना न कुराप ओह
हाणं न प्पाह आ हा गाः ४

आहाप्या गछ तं पेहु आहाप्या
फोरंग तं पेः आहाप्या पारातं
पेः आहाप्या नर आहा तं पेहु
आहाप्या पांग नं तं पेहु आहा
प्या फर आरांग तं पेह आहा
आहाप्या फर गनत पे
प्या रांग तं पेः आहाप्या पपू
घ तं पेहु आहाप्या न कपकी
तं पेः हम गा अपतार: हकगो
ला ना: आहा पोर्तनाअप लाः
तं पेलापूना तारंग हरः फ
रंग न प्या नर आत गोरः पनं
गह पोआत पानहः आ पाए

[illegible]

अपाद पीआन प: नरंजनं: नरअ

लीपांप दआ हः आतगोर पीर

कुष्पार दीनः आतगोर पीर ओद

र दीनः आतगोर पीर आहेपा दी

नः आत गोर पीर नआर दीनः

आत गोर पीर अभआ दीनः आ

तगोर पीर आ लांओ दी नः नर

अे आ लांप आहः नर अ ली

नरंजनां नां पः अ पान र आ

त गोर तं पारी दो पाः अ पाल

आद तं पेः ७ नाद तं पेआ

हाद तं पेः आ पाद तं पेः ॥

तेज तं पेः पांपा तं पेः एमतं
पेः पंमतं पेः नूरतं पेः नूरंज
न तं पेः नरंजंनते नराकारः
पेदा की दा मरत मारः आपपदा
अरनो आं मारः आदे मरना मा
रे प्याक्षः मतरमरते: परती पां
णा तां मरंपाप आपपरकाः
उपना पंमतं ना पने आआः ती
आआंण पे ठारहाः कोई के ने पं मं
ननाक हाः नही ऐगोरने क उनं
नानः करई मात गोरे की धाणाः
ऐके पं मं न पानां आं ऐः ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रा पु ज पत जो र हा: तारे मर मा

जे ह कुम जो प ज्ञा: तंजा कीधा

जोग आर: आक दरू पारं ओं

आर: फर ता जग गमा आे पत पा

ण: जे पो गोर जोर कीधा पर मा ए

रप पे हि हैम्मा डां द हैं म: तेजा प

अं म र अ मा: जे घट ए फरं म: जां

जा हे अं म रा पर ग ज्ञा: प फरा

तं फेरा मार हा: हा ते ताज गमा

ई कु ज प्पा पा: जे हो गोर जोर की

धा पर मा ए: जो जर पे हि हे मा

डां द रं म: तेजा प अं म रं प ज्ञा

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

तं मारे पाछे के तं मारे गांनमां के
तं मारो पाडे छे तं मारा नांम न
रना होआ ता: ऐना पनें आंपतजा
[illegible]

रआंपुंह॰ न प्रान र अ त गोर पा
र प्रंर मा ज॰ग अत गोर ई माम
आ हा॰ नर अ ला म हं म ह आहा
हप्र ला ऐ ला ह॰ ई लं ला हो॰ माह
म हररअ लं लां हे॰॰

प्रा ९३ । प्रा

हो पा ज प नेप्रा ज ईड अ प्राषुट॰
जा उ टा मां ह्र॰ ग प्ररमा नजा प्रे
आम जाहरर हे मा जनरर हि म॰
अ त गोर पा र प्रार मा॰ ई माम
आ हा॰ नर आ ला मा हा म ह आहा
आ त गोर पी र प्र प्रार हीन॰ आ

2010 Before -Satpanth Manuscript 24 (174)

त गोर पीर ओ दरदी नं० सतगो
र पीर आ हेप्य दी नं० सतगोरपीर
नआर दी नं० सतगोर पीर आं स
आ दी नं० सतगोर पीर आलाओ
दी नं० नरअम लां सआ हा०
नरआ लीनरं न न नां स० नप्या
नर सतगोर तसाशदी पा०
अपां सातं से आह नरं न नां नर
फार: ऐ ते हपफीरं सो० सं आर०
पे लाआर ज प्यांद्रा मार० सतन
सरतं परती पाछा० सतरसर
तपपस तार० सतरसरतेपेह

अ ग री आ र: तं मे न रे ज न

ध री अप तार, नर न्य री नो ऐकु

पे मार: अ पांमी तं मे: अत गोर

ने ओ प धर अ:र मो अतपंमीनें

उ तारा कर म: तप मुर ते धरां अ

प तार: आप तरु पी रं मो अं आर:

मा आरं मा आन त अ पर: तं मे

नरंनं नाऋ री न नहार: धनमा

पु माल प अ प तरो: ऐ कु पा अला

म तो फेरा फरो: जो जर पे हे प

री आगम: फेरा टाळो ऐ कु पीर

लागम: अं गर ने हज लाग ७५

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

अत गोर पातृ प्यारे भा॰ अदर ई
भा अआ हा॰ आदू पाअ न प॰ न
रंजन॰ नर अ ली भहं अ दू आहा॰
अत गोर पीर कु प्या र दीन॰ अत गो।
र पीर ओदर दीन: अत गोर पीर
आहे प्य दीन॰ अत गोर पीर न
आर दीन॰ अत गोर पीर अं अआ
दीन॰ अत गोर पीर अ ला ओ दीन॰
नर अ लां अ आ हा: नर अ ला
न रंजन ना भ॰ ल प्यीनू र अत
गोर तं भारी हो पा॰ अ पां भाते
ने॰ आ दन रंजं नां दे प॰॥ पा

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

नर अ आ लों जमा हा ध फी॰

तं मे मं ता फरो ऐ जा प तं फी॰

तं मार आ डो॰ तं मारो पा डो॰ तं मा

रो पा डो॰ ऐ जा प जो ७ द पा ज प।

दा॰ मा हे पा का डो॰ तं मे जा प दी

प ना ध फी॰ नर अ आ लों ज मा हा॥

तं मे मं त फरो ऐ जा प त फी॰ ऐ

जा प ना न पो न प नां पा प मे।

डो॰ अं मर नो द ना अं गे॰ ओ प

त मा हे जो डो॰ तं मे दे पा डो जा

प ने पार॰ तं मे म७ द न पं न॰

ना म्रु रं जं न हा र॰ आ त गो र॥

[illegible]

१५

[illegible]

पारआसा दीन ४ आतगोर
पीरे नकी र दीनः आतगोर पीर
अंगआ दीन॰ आतगोर पीरआला
ओं दीन॰ नर आआ ला नआसा॰
नर आ लान रं ग नांमा स न पा
नुर आतगोर तं सा री हो पा॰॰ अ
पांआ आ दन रंग न तं से॰ आ गा
स आ गो सर तं से॰ पां न पां ने त
तं से॰ करं ह कलफ सा तं सेः कु
ओ गं त सा तं सेः आ आं ह आ आ
तजो तं से॰ धान सां तं सेः ह्रो द्रो
कार सां तं सेः धनु सां तं से॰ ।

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

पर पारं० नमा नर आतगोरं०
नर श्रमआ लाम आदा तारं० आत
गोर आ लाश्रोही न: आतगोरआं
मका ही नं० आतगोर नश्री रही
नं० आतगोर आहे पप हीनं० आ
तगोर ओ दर हीन: आतगोर फपा
रहीनं० आतगोर ई माम आ हा०
नर श्र लामहं मद आ हा० हफमे।
ला नां: ओल तांन पारानां दफा०
तंमे मं ताफरोछे नप तं फा० तं
मारो श्रा डो० तंमारो पाडो: तंमा
रो पाडो: छे न पने नरो न फाद।

[illegible]

नरनां गनी हेपाअहीः आ
अष्टम भतजेः अनंपाणपनी
हेपाअहीः हीकाणी कुरपेअर
णपनी हेपाअहीः काळेमंतेमा
रापेअः परपार नी हेपाअहीः
तंमारा कुलं माफी नी हेपाअ
हीः तंमारा नरफर मां ननी हेपा
अहीः ऐणपने लप गोराओ नाः
फेरापी घटाडोः नरोनप्याडुमा
हेपाकां डे: तेनी अकरोडनामे
कामाटेः नांपूहीपनां हपाः
तमे मंतापूरोळेणपतेफीः

सतगोर इमाम आहा: नर अली
पहं मह आहा॰ ह कुल ऐ लहे॰ इलं
लाहो॰ पहं महरर अलं लाहे॰

। १८६ ।

दोपापां सभोरपा पाडे अनो अपदे
उ न अछे गा फर पान नेगा पोक
पा ल हररेहे मा ननरर हि नगा क
त गोर पा त पार पा: अहर इमा म
आहा॰ आद पी अनप॰ नर अनां॰
नर अली पहं मह आहा॰ सतगो
र पार कुपार दान: सतगोर पा
र आदर दान॰ सतगोर पीर आ

होषा हीनः अतरपीर न आर हीनः
अतगोर पीर अ न अ हीनः अत
गोर पीर अला ओ हीनः नर अ
अला म आहाः नर अलीनरं बना
नामः नपी नर अतगोर ते मारी
होषाः अ पांमा ते मे आदनरीन
मांनरा फारः आंक फारपीः अठ
पअतारः पार मा॰ पी॰ अनपः
माहि अरः अफली आरः तं मे नरं
जं नाः टगे हैं ररपे फरतारः तं मे प्ता
म घः त मे प्ता फेरं नः तं मे प्ता
पाराः तं मे प्ता नरआहीः तं मे

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

जप नो फरो नमतार: अपांनो
तंगे फल लां ण्या जप नै तारो: अ
रगत्रां मत्रां पर गां पें आरो
नरसा ली ग हं गदआ हा: अतगो
रथ मां गआ ह नी हो पा: अतगोर
पीर कुवीर हीन नी हो पां: अतगो
रपीर ओ हर ही न नी हो पा: अत
गोर पीर आ हेप ही न नी हो पा:
अत गोर पीर न औरहीन नी हो पा:
अत गोर पीर ओं गआ ही न नी हो पा:
अत गोर पीर आ लाख्यो ही न नी हो पा:
नंप्या न हर अत गोर तंन रसा आ

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

फ्रा फ्री नी॰ ऐ आप नी गाऱ्आ गृग
त छ चा डो॰ र पा॰ ग ऋ प गाति पोग
डो॰ हो आ ती आ त ओ आह हो अं नी:
फ्रों तफ्रा ऐ ग नां पर पार नी॰ हो अती
हि री पंआ पर पार ना॰ ऐ आप नी गृ
ग ता मो डो: पां ञ्आ न फर गं पां छं
नं छो डो॰ ऐ आ प ना मारे प्याए नां
पा प नां डो॰ ऐ आ प ञ्अं न त पार
ञ्अ प त रो॰ ते फेरा नां फ रे गं पं
छं नां छो डो॰ आ त गोर ई गा ग आं
हि॰ नर ञ्अ ली गहि गह आहि॰
फ लां फ्र आ प नां प ड प डां: ते आ
प नां फ्र आ गो त गा हि ञ्ओ फ्रो

ररओ ना ए नां॰ए को न ओ पा

पनां॰आत फज आवरी नां॰ए

जपनां॰पर पार पर पार नाहे॰

बेज प पाआ नां फुरे॰ नेज प॰पा

आरा पे॰ तेज प ने ओ प्प ओ हेलां

फरो: दो प्प हो ए लाहर फरो: एज

पने मरत लोक: ने॰आ ओ फुपा ७

छाडो: रपा मं, पने॰ पोफां मे पो आ

डो॰ झुरज मं नु प त रपा पो फाम:

तेहा फो ल र प्पे आर: आत पं पो ज

प ना हां म: एजप ने फज गो तु

पा हे पो मा डे: पां आ आ त

[illegible]

realpatidar.com

होपाछडी जापनेछडाआछेः होअ
ती दरगानी ॰गा फरमां नजःगापे
आमलानरते मानन रहीमः॰आ
तगोरपात्पार पाः अदर ई मानमाहां॰
आदपीआ नपं नंदनां॰ नरआली
ममममदआहां॰ सतगोरपीर फपी
रहू नः॰ सतगोरपीर मोहर दीनः॰
सतगोरपीर आलेप दी नः॰ सतगो
रपीर नमा रही नः सतगोरपीर
अंतअ दी नः॰ नर अमलाम आहां॰
नरआली नरं अंनां नां पःनपी
नर सतगोर तंपानी होपा॰

[illegible]

अफ्रफरे॰ तेणपने मला पोरपा
पोकुं पण॰ हीपांनप्याइ आहाण॰
तेणपनेरपांपफगपो माडी॰हे
णपने ते तीअ फरोडी नापेपा
पारांप्यो ण॰ जे ण पतंपे नेनंपे॰
तेणपने छोडापोण॰ ले आरपेरमं
नां तंपापीर माछे॰ तेणपना मं
तातंपने छे॰ जे मालोणपन ठ
ठा अफफरे॰ तं अपांपी तं नेफ
प्पूलफरो णो॰ प प्पा प्रआपण
र॰ गोरगतनी हीपा फप्पलफरो ण॰
हे अतीहरगानी फप्पलफरो णो॰

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

फरी आद गत गंगा नी: फरी
आद गणपत सआफर नी: फरी आ
द अनंत करोड देव नी: फरी आ
द नवां कुल करोड कनबीआं नी:
फरी आद छपंन करोड मेघां नी:
फरी आद पतीआ करोड पेगंबर नी:
फरी आद पांस करोड अपछरा
नी: फरी आद आत करोड अफरी
मंद नी: फरी आद नव करोड अ
नेके अवतरन नी: फरी आद प्यार
करोड अफुं मआफकुआर नी: फ
री आद कोलतरपे अरजन नी:

दीपांनप्पा दूआ हािजाडु ऐजपने
ईमाजप दीजाहेलापोंजः ऐजप
नेते तीआ करोडी·आपे लाड लाडा
पोंजः जां प्प दीप नाओ ल तांनज
तंजे फरोप्पं दा ने जआ फे ल्आ
आंनजः आतगोरईमा जआहाः
नरआलीजहंग दआहाः हप ला
एलाहः ईलं लाहोः जहं जदर
रआलंलाहेः पा

१८

दों पा आतजी प्पांव नधांटा न
जपने ठ्ठाआंणेः फार जानज

पे स अं ल ह र रे हे मा न न र र हो मे:
सतगोर पत पार मा: अ द र ई मा
मसाहा: आ द पी सान प: न रें
म नां: न र अ ली मा हा म द आहा॰
सतगोर पीर फ पार दीन: सत
गोर पीर ओ द र दीन: सतगोरे
पीर साहे प दीन: सतगौं पीरन
आर दीन: सतगोर पीर अं मस
दीन: सतगोर पीर स ला आे
दीन: न र अ ली न र नंनां न म:
न पा न ह र सतगोर तं मा री हो पा॰॰
आ पां मा मे हेर फ रो म प नें: तम:

रापगने परतापे करी॰ आपने
जगतां घाट करी॰ आप रपे हने
मल गुं करी॰ ऐ आप ने रपा ं
ओ पोमा डो॰ नप्पी नर आत गोर:
नर श्रम ... म आाफा॰ आत गोर
आता आो ही न॰ आतगोर आं मआ
ही न॰ आतगोर न आीर ही न॰
तगोर पां आाते प्प ही न॰ आतगो
र आो दर ही न॰ आतगोर फ्पार
ही नः आतगोर छ पा म आाफा॰
नर आली पहं म दआाफा॰ तं जे
आा दु पा आ नुः नांरां ऐ पुरा॰ पला

प लाऐत ना पञ्र नारं: गुलाम
तां नऍ ना मगरः० ना पहीपन
गुलतां न० जा पना परहा तप:
तंमे तं मारी पा आपा जो० नारे
तं एटो ज ह ताःतारे तं मे पा आ
ही ही: आ ज तं पा आ तं मे पा ओ
तं मारे करणे: तं मारे करणे० करी
ने तं मारे अ तं: तं मार द ते करीने:
तं मारी दआ तं मारी म = पा करी ने:
तं मारी ज मां: अंतो के करी न:
तमार मेहेर० नर करी ने० ।
ऐ जप ने प्पा पंन धारी पो आडा०

जं न न पां एक करोड जां आपो
ता॰ जं न छपन करोड ने छांपोता॰
जं नच तीआ करोडी पेनरपोता॰
फपे ते तीआ करोडी हे पः जपना
मे आ पूरा करो॰ जां पहीपना॰
नारंघ जाग तां करोः आ ज अप
रपे हने पा ए पे॰ आ सतपंथ ने
परता पे करी॰ पारना॰ पाअन नी
पनाए करीः आ तर अे हेअ तहे
अे नी॰ को लखाए न नो परपा
र॰ तं नारे अत॰ तं नारे हते करी॰
अप अ कत नाप ग॰ ने परता

पेकुरा नेः ऐनापने प्या पंनघां
टी पो साडोः रपा पंड जपाया
अक्षालोः सारप्यांडुनापेरा
रालोः नरअली नरंज नांःन
कअकी नांरां ऐऐः इक्ष पाक्ष
पतारःसत गोरपा त्रपरपाः
चंदरईपापक्षा हाः नरअली
पहं पइक्षाहाः पोलांनांः तंपे
नापूनातारंडा हरः ऐनापना
कअगोत्रपाहेःऐको तरओपा
ऐनाः ऐको तरओपापनाः
सातकुपाआआरी नाः।।।।

ने ज प पामां ना फरे॰ ने ज प त्र्य
मं ना रा ग्यो॰ ते ज प ने तं पा री पा
प पा ने पर ता पे फरी जे॰ प्या पं
नं घां टी पा मा डो॰ प पा ने ज
प ने नां मे पर मे पा परे॰ त पा पु
री स्या पर पु रे॰ ज प न ७ टा मके
रो ख्या मं प्रो॰ तां कां रो कु कुं नां
मे ले॰ ते तं पा नी पा प जा ने॰ पर
ता पे फरी जे॰ ए ज प न ७ टा म
पु प कु प्यु ल फरो॰ ए ज प ने प्या
पं घां टी॰ ना हं आप्य मु फा यो॰
फ ला पु ज प नो पं ड पडो॰

[illegible]

पापे न घांटी नाहि आव्या रालोः
दी पांन प्या द्रशा हाबाः बांप्र दीप
नांमोाल तां नः मात गोाद्रई माग
आहाो नद्र भा ली पहि पद्र आहाः
प्याकुरमाहाः प्यालेकुमा हाः नी
गा द्रमा हाः मे द्रमें हेद्रः मे द्रमा
हे प्यल्द्री नः मे द्रमु मतपालाः मे
द्रपाा न प्या पा बाः गा हकुलाापे
ला हो ई लं ला होः महिं न द्रद्रद्र ख
लं लाहेः ॥१८॥
दो वा प्यावं न घांटी नाहेने दा प्या
छः

मेरपनी ओ कोः सतना मो कोः
पत्री तना ओ कोः मेरु फरश्रतो
फो एः अजराईल नो पो पाचोः
ए पांआ तफरश्र ता नो पचायोः
ज ब्रराईल फरश्र ता नो पचायोः
मेकाईल फरश्र ता नो पचायोः
इसराफील फरश्र ता नो पचायोः
अरवाईल फरश्र ता नो पचायोः
नूरपाईल फरश्र ता नो पचायोः
आली घंटी ओ कलो करोः तंबघो
टीनाथ गंनं करोः कंठ घांटी मो।

हो घां टी॰ आ ता आरखु घां टी॰ नं

न घां टी॰ ऐ मारे घां टी नां पं छ पो

ला आ करो॰ वि ल घां टी नां प गं न

कर करो॰ पो हो घां टी॰ ओ पं न घां

टी नां मो फी पी घो डा पो॰ र पी घां

टी॰ मार घां टी ऐ आ प तं पा रो न

पो॰ पा पं न घां टी नां क का पा

पा री नो॰ र पां नं ड प पां पाअ

आ पो॰ पा पं न घां ते पार ठ ता

रो॰ आ त घां टी ते पा पं न घां टी

आ को॰ न पा र ई ल नो पो जा वो॰

ऐ ज प न न प पोर फो फा ए पां

कुछे॰ नपा नरअत गोर॰ पीर
संगम गोर॰ पीरन अरदीन॰
पीरना ते पण दीन॰ पीर मोदरदीन॰
पीर कपार दीन॰ पीर ईमाम शाह॰
ऐवण गोर नी सापा साऐ दीन
रनाणा आहा भरतज आता॰ नर
आवन लां न आहा॰ नर आता भडन
दआहा॰ पीर नकुं कं की नारा ऐङा॰
ऐम वो कां हां नणा पतं पारोछे॰
अपां जागन कं फो तं पारो॰ कज
जोगने परतां ने॰ आपिर पे
दने पाऐ के॰ ते पार आडो तं पाटो

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अ पांमी ते मे आ ईवा अन प॰नां
रां ऐ [illegible] न क पा की र प॰ प्यार माप
अन ठां प: मा हे अर ज प॰ ई ओ अ
पतार मा हे: अ पा मी तं मे जी मछ॰
अ पा मी तं मे जी कोरं जा॰ अ पा मी
तं मे जी पारां॰ अ पा मी तं मे जी
नर आं ही॰ अ पां मी॰ तं मे जी
पा मंन॰ अ पा मी तं मे जी फर
अरा म॰ अ पां मी तं मे जी रां म॰
अ पां मी तं मे जी प्र ह॰ अ पा मी
तं मे जी न क पा की: न रं न न ई
अ मा [illegible] प तार॰ हे क मा ल ना

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

https://archive.org/details/bk174/page/n409/mode/1up

अमारा अपरंपुरना छे हे न हि:
आपां मां तमाराना मउपर: व्यली
हारजा छ: तमाराना मउपर: आ
रफेजा छ: ही पानव्यादशाहजा:
तमेजे स फुरजनी पाखां: तसफ
रजनी पाखों जा: आपां मां तमे
नापओ माये: धार पार आगावे:
अने पत्र नी: हो पापकरावें. तेक
प्यूल करोजा: जघी महापाप
नी: हो पापकप्यूलकरजा: एजप
नां पांचेपत्र नकप्यूलकरोजा:
एजपनां आपागवंनदूर करे
जा:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

दो पा नो मा जम नें ७ उा आं छे आ
ओ आ नी॰ फार मांन जगाग पेआ
मला ते रे रे ते मा नन रर ती ग॰ सत
गोरपा र पार मा:आ दर ई मा मा आ
ता॰ आ द पीआ वा प॰ न रें नां॰ नर
आ ली म ते म द आ ता॰ सत गोर पी
र पुप्पार दीन गु सत गोर पीर आ॰ द
र दीनः सत गोर पीर आ ते प दीन॰
सत गो र पीर न आ र दी नः सत
गोर पीर आं म आ दी न॰ सत गो
पीर आ ला आो दी न॰ नर आआ
लां मआ ता॰ न र आ ली नरें

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नारां ले प: न फ पां फ: न पी नरआ
तगोर: नरआ आ लोप आ कहा ता र:
आ तगोर आ ला ओ ही न: आ तगोर आं
पआ ही न: आ तगो र न ओर ही न
नी आ आ आ: आ त गोर आ कहे प
ही न नी आ आी आ: आ त गोर ओ
दर ही नी नी आ आी आ: आ त गोर फ
प्यार ही न नी आ आी आ: आ तगोर
ईपा प आ कहा नी आ आी आ: नरआ
लो पहिं प ह आ हा नी आ आी आ:
आ वां पा तं ओ फप्प ल कडे: तं ओ
आहि प ओ ल ता न: ने ७ प नी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

२२

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

ગહંગ દરરઅ હં હા હિંઃ

દો મામા મને હિંકાં કેઃ મ માકપ્પલવાળેઃ

ફાર માન આઃ ॥ મેઆ મહા હરરે

હે માન નરર દિનઃ આતગોર પદ

પરંમાઃ અં દરઈ માઆ આ હાઃ આ

દ પીઆ નપઃ નરંન નાંઃ નર અલ

અહંમદ આ હાઃ આતગોર પીરફ

પીર દીનઃ આતગોર પીરઆ દરદી

નઃ આતગોર પીરઆ તેજ દીનઃ

આતગોર પીર નઅીર દીનઃ આત

ગોર પીરઆં ગઅ દીનઃ ......

आन्त गोर पीर आ

आत गोर पीर आलोमो दीन:

नर आआ लोप आताः नर आ

लोनरं नन ना पा: न पी नर आ

त गोर तं पारी दो पा:० आ पां प

तं पे आ री नन दोरः परं पा प

ल आ प तारः आदेपी आन लः

फा ऐ पर पः आ दनरं नना लेफः

आं ने लुन पा आर पः तं पांरां

नरः तं पारा न हरः तं पे गत

ओ आ ट पा [illegible] नर पः [illegible]

त ना घ ना फ रो करः तं पारां

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]


محمد رسول الله
يا علي يا علي



[illegible]

पुंसपालालाजपुेनमूपंतः
रम दःईमांमनुरनपजंपः
नारा ऋप्रेपानरजंनःऋोतं
मनपजंपःसपतमारतकः
लोहोनेपलंमः स्पांमी ठिना
दऋपीगतःलकरजंतेः
सपतपातांजंगःमोहोर
नमूपंतःमधीजंमानरजं
नगःमोहोरनमूपंतःपे
रजजंनानरजंनगःमो
रनमूपंतःपेहार[illegible]
नरजनंगःमो[illegible]

नरसींनंनानरींनंनगः
मोहारनप्रपंतः पांमन
पांमननंनानरींनंनगः
मोहारनप्रपंतः फरस
रांमनंनानरनंनगः मोहा
रनप्रपंतः रांमनंनान
रनंनगः मोहारनप्रपंतः
क्रसंननंनानरींनंनगः
मोहारनप्रपंतः प्रदन
नरनंनगः मोहारनप्र
ः नप्रनप्रनंनानरनन
मोरनप्रपंतः ॥

मारतनाःप्रतीःप्रानिनप्र
नंपःप्रभिरोपकूःपसनपेः
मानोजारनहोःजीसांनद
रमःनंनानरनंनगःफेपना
सेःनुरमतगोरःहरगोपंदः
जीःप्रसनांनसाहाःन
गोपंदःनुरनप्रपंतःद्र
ममारगःसपानगःएम
महसंनःहोसेनाःएमां
नःप्रनाप्रदीनःएमां
हांमदमापरःएमां
रमाहीपःएमांम

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

तथाअपारनंमतां:मोक्षा
रनप्रपंतजुपेतां:नपा
साक्षीप्यनीमलानसमांक्षां:
प्येगानुदरमपा:प्रो:पाछ
लोइंनघडीमारक्षां:मेतारे:
मोक्षारनप्रपंतजुपेतां:
ईमांमक्षसनक्षामेननेहस
प्रोसीलीधानुपन्मपा:
तपासांत्रमांजुपेतां:
क्षामोरतनांःमलीःसा
ःमालेपसलंमःसापेह
प्रोसीलीधानुपन्म
तपारातपाक्षोरन

१३

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

2010 Before -Satpanth Manuscript 24 (174)

तथा साहेब ६६ार आपे:
तथा नसतन सीपकरे:
ओमो फोरन प्रूप तनो:
मासी अ त त लमी छे: लो
पम त छी म छु: नलुपे ता:
ओपू हाडा मां फ ओपू पार
लुपे: ते [illegible] ३र तां लोर्इन.
पू तो: हाडा आठ मा हूक
पे: ओम पुरा तां लोर्इ०
पू तो: ओपू म र्इ [illegible] मां
पे: ओम पूर तां लो[illegible]
पू तो: परम हाडा
ओम पूर तावर



